



TELEGRAM CHANNEL: <https://t.me/patrioticIAS>
YOUTUBE CHANNEL: <https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>
CONTACT: 9971932488



PATRIOTIC IAS

THE HINDU NEWSPAPER

DAILY CURRENT AFFAIRS

19 JULY 2025

To watch an in-depth discussion on the topic, click on the YouTube link below:

<https://www.youtube.com/@PatrioticIAS>

For regular updates on UPSC and PCS preparation, join our Telegram Channel: <https://t.me/patrioticIAS>

19_07_2025 DAILY CURRENT AFFAIRS

TOPICS COVERED (GS Paper II: Polity, Governance, And International Relations)

- 1. Judge challenges SC probe, former CJI's actions in cash case**
न्यायाधीश ने नकदी मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच और पूर्व सीजेआई की कार्रवाई को चुनौती दी
- 2. EU sanctions Gujarat refinery for buying Russian crude**
यूरोपीय संघ ने रूसी कच्चा तेल खरीदने पर गुजरात ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाया
- 3. Govt. demonstrates fake 'verified' X account in HC**

Address : 3rd Floor, KV Tower, Padleyganj Road, Gorakhpur
Email Id : info@patrioticias.in
Contact Number : 9971932488
Website : patrioticias.in



सरकार ने हाईकोर्ट में फर्जी 'सत्यापित' एक्स खाते का प्रदर्शन किया

4. **Indian Inequality and the World Bank's Claims**
भारतीय असमानता और विश्व बैंक के दावे
5. **Syrian forces set to re-enter Sweida as clashes restart**
सीरियाई सेनाएँ स्वेदा में पुनः प्रवेश करने के लिए तैयार, झड़पें फिर से शुरू
6. **Syria's Druze find bodies of loved ones in streets after days of clashes**

PATRIOTIC IAS



Judge challenges SC probe, former CJI's actions in cash case

[GS II: Judiciary]

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

Allahabad High Court judge Justice Yashwant Varma said on Friday that the Supreme Court's in-house inquiry process, which recommended his removal from office, is a "parallel, extra-constitutional mechanism" designed for the judiciary to usurp Parliament's exclusive authority.

An in-house inquiry committee of three judges constituted by the then-Chief Justice of India Sanjiv Khanna had confirmed that unaccounted cash was found in the gutted storeroom at Justice Varma's official residence after a blaze on March 14 and 15 this year. Chief Justice Khanna (now retired) had sent the report to the Prime Minister and President in May after Justice Varma refused to resign.

Unconventional move
Now, just days before the Parliament's Monsoon Session is set to open, Justice Varma has resorted to challenging both the report and Chief Justice Khanna's action in the Supreme Court, in a rather unconventional move by a sitting High Court judge.

Justice Varma said the in-house inquiry takes away the exclusive powers of the Parliament – granted under Article 124 and 218 of the Constitution – to remove judges, through an address supported by a special majority after an inquiry under the Judges (Inquiry) Act, 1968.

The petition has been filed under an anonymous acronym 'XXX', but describes the petitioner as Allahabad High Court judge.

The in-house procedure, devised by the Supreme Court, had no legal



Justice Yashwant Varma

Motion to remove judge not related to govt.: Minister

NEW DELHI
Union Law Minister Arjun Ram Meghwal on Friday said that the motion of removal against Allahabad High Court judge Yashwant Varma was not related to the government but Parliament. » PAGE 3

sanction, the petition argued, claiming that it was a threat to the separation of powers. Justice Varma urged the top court to declare the in-house procedure unconstitutional. The petition argued that the in-house inquiry procedure against sitting judges was also a threat to judicial independence, an essential part of the basic structure of the Constitution.

Justice Varma made a direct attack on Chief Justice Khanna, saying the latter did not give him a personal hearing after the committee report came out nor had he afforded him a chance to properly review the document. The petition pointed out that the inquiry reached its conclusions merely on the basis of presumptions. There was not even a formal complaint about the 'discovery' of cash. Neither was the alleged cash seized or panchnama prepared.

सीरिया के ड़ज़ लोगों को कई दिनों की झड़पों के बाद सड़कों पर अपने प्रियजनों के शव मिले

Judge challenges SC probe, former CJI's actions in cash case

न्यायाधीश ने नकदी मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच और पूर्व सीजेआई की कार्रवाई को चुनौती दी

Justice Yashwant Varma Challenges In-House Inquiry Process

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इन-हाउस जांच प्रक्रिया को दी चुनौती

Allahabad High Court judge Justice Yashwant Varma said on Friday that the Supreme Court's in-house inquiry process, which recommended his removal from office, is a "parallel, extra-constitutional mechanism" designed for the judiciary to usurp Parliament's exclusive authority.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस जांच प्रक्रिया, जिसने उनके पद से हटाए जाने की सिफारिश की, एक "समानांतर, संविधान से बाहर की व्यवस्था" है जो न्यायपालिका को संसद के विशेष अधिकार को हड़पने का साधन बनाती है।

An in-house inquiry committee of three judges constituted by the then Chief Justice of India Sanjiv Khanna had confirmed that unaccounted cash was found in the gutted storeroom at Justice Varma's official residence after a blaze on March 14 and 15 this year.

उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित तीन न्यायाधीशों की इन-हाउस जांच समिति ने पुष्टि की कि 14 और 15 मार्च को आग लगने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक निवास के जले हुए स्टोररूम में अघोषित नकदी पाई गई थी।

Chief Justice Khanna (now retired) had sent the report to the Prime Minister and President in May after Justice Varma refused to resign.

मुख्य न्यायाधीश खन्ना (अब सेवानिवृत्त) ने यह रिपोर्ट मई में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेज दी थी, जब न्यायमूर्ति वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।

Unconventional Move by a Sitting Judge

एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा असाधारण कदम

- Now, just days before the Parliament's Monsoon Session is set to open, Justice Varma has resorted to challenging both the report and Chief Justice Khanna's action in the Supreme Court, in a rather unconventional move by a sitting High Court judge.

अब जबकि संसद का मानसून सत्र कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, न्यायमूर्ति वर्मा ने रिपोर्ट और मुख्य न्यायाधीश खन्ना की कार्रवाई दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो एक मौजूदा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा असाधारण कदम है।



- Justice Varma said the **in-house inquiry** takes away the **exclusive powers of the Parliament** — granted under **Article 124 and 218** of the Constitution — to remove judges, through an address supported by a special majority after an inquiry under the **Judges (Inquiry) Act, 1968**.

न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि **इन-हाउस जांच** संविधान के **अनुच्छेद 124 और 218** के तहत संसद को दिए गए **न्यायाधीशों को हटाने के विशेष अधिकारों** को छीन लेती है, जिसे **1968 के न्यायाधीश (जांच) अधिनियम** के तहत विशेष बहुमत द्वारा समर्थन प्राप्त प्रस्ताव के माध्यम से किया जाना चाहिए।

Petition Filed under Pseudonym

छद्म नाम से याचिका दायर

- The petition has been **filed under an anonymous acronym 'XXX'**, but describes the petitioner as **Allahabad High Court judge**.
याचिका '**XXX**' नामक **छद्म नाम** से दायर की गई है, लेकिन याचिकाकर्ता को **इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश** बताया गया है।
- The **in-house procedure**, devised by the **Supreme Court**, had **no legal sanction**, the petition argued, claiming that it was a **threat to the separation of powers**.
याचिका में तर्क दिया गया कि **सुप्रीम कोर्ट** द्वारा तैयार की गई **इन-हाउस प्रक्रिया** को **कोई कानूनी स्वीकृति प्राप्त नहीं है** और यह **शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के लिए खतरा** है।

Threat to Judicial Independence and Constitution

न्यायिक स्वतंत्रता और संविधान के लिए खतरा

- Justice Varma urged the top court to declare the **in-house procedure unconstitutional**.
न्यायमूर्ति वर्मा ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि वह **इन-हाउस प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित करे**।
- The petition argued that the **in-house inquiry procedure** against **sitting judges** was also a **threat to judicial independence**, an **essential part of the basic structure of the Constitution**.
याचिका में तर्क दिया गया कि **मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ इन-हाउस जांच प्रक्रिया** न्यायिक स्वतंत्रता के लिए **खतरा** है, जो कि **संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य हिस्सा** है।

Allegations of No Fair Hearing or Formal Complaint

न तो उचित सुनवाई, न ही कोई औपचारिक शिकायत

- Justice Varma made a direct attack on **Chief Justice Khanna**, saying the latter **did not give him a personal hearing** after the committee report came out nor had he **afforded him a chance to properly review the document**.
न्यायमूर्ति वर्मा ने **मुख्य न्यायाधीश खन्ना** पर सीधा हमला करते हुए कहा कि रिपोर्ट आने के बाद उन्हें **व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया**, और **दस्तावेज की समुचित समीक्षा का भी अवसर नहीं दिया गया**।
- The petition pointed out that the **inquiry reached its conclusions merely on the basis of presumptions**.
याचिका में कहा गया कि **जांच केवल अनुमानों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंची**।
- There was **not even a formal complaint** about the **'discovery' of cash**.
नकदी की 'खोज' के बारे में कोई औपचारिक शिकायत भी नहीं थी।



- Neither was the **alleged cash seized** or **panchnama prepared**.
न ही कथित नकदी जब्त की गई और न ही कोई पंचनामा तैयार किया गया।

EU sanctions Gujarat refinery for buying Russian crude

GS II: Developed World

Sriram Lakshman
LONDON

The European Union (EU) has sanctioned a Gujarat-based refinery owned by Nayara Energy Ltd. as part of a fresh sanctions package announced on Friday targeting Russia's energy sector. The announcement comes just as the U.S. Congress debates tightening sanctions on purchasers of Russian crude oil, with India, China and Brazil being named by U.S. lawmakers as countries that could face penalties.

The new EU sanctions also include a lowering of the oil price cap, i.e., the maximum price countries can pay for Russian oil while using shipping and insurance from the advanced economies of the G7 group of countries, from \$60 per barrel to \$47.6 per barrel. The sanctions also include an EU-wide import ban on re-

efined petroleum products made from Russian crude oil and a full transaction ban on Nord Stream 1 and 2, natural gas pipelines that connect Russia and Germany.

The announcement came after Slovakia's Prime Minister Robert Fico said he would stop blocking the sanctions package over fears for his country's energy security because of a possible total EU ban on Russian gas by 2028. "For the first time, we're designating a flag registry and the biggest Rosneft refinery in India," the EU's highest-ranking diplomat, Kaja Kallas, said on X.

Ms. Kallas listed the highlights of the 18th sanctions package.

Second largest refinery
Rosneft has a 49.13% stake in Nayara Energy's refinery (formerly Essar Oil Ltd.), based in Vadinar, Gujarat. The remainder is owned



Each sanction weakens Russia's ability to wage war. The message is clear: Europe will not back down in its support for Ukraine

KAJA KALLAS
Vice-President of European Commission

by SPV Kesani Enterprises Co. Ltd., and individual investors. The refinery is India's second largest, producing 4,00,000 barrels per day and operating 6,300 plus petrol pumps across India, as per its website. The company has reportedly been in talks with Reliance Industries Ltd. regarding a sale of its stake.

"Each sanction weakens Russia's ability to wage war. The message is clear: Europe will not back down in its support for Ukraine," Ms. Kallas said in a statement.

'Full-fledged sanctions'

(travel bans, asset freezes, ban on providing resources) will apply to the refinery as per a statement from the EU.

The new package sanctions 14 individuals and 41 entities, bringing the total number of EU-listed entities to over 2,500.

It also contains enhanced sanctions on Russia's so-called 'shadow fleet' – ships that are sanctioned or transacting in sanctioned goods.

An additional 105 vessels will now be subject to a ban from accessing EU ports and banned from a

wide range of maritime services, bringing the total number of listed vessels to 444. A captain of a shadow fleet vessel and operator of an unnamed international flag registry have also been "listed" (i.e., subject to sanctions).

As part of enhanced banking sanctions, the number of banks sanctioned and the breadth of the sanctions is set to increase and will include a total transaction ban for 45 Russian banks.

26 entities sanctioned

Twenty-six new entities have been added to the sanctions list for supplying dual-use goods to Russia and more companies have been sanctioned for supplying to Russia and Belarus's military-industrial complex, as per a statement from the European Council.

The Hindu reached out to the European Council

for further details of new entries on the sanctions.

The new oil price cap – set at 15% below the average market price of Russian crude – while not adopted by the entire G7 – was also adopted by the U.K., as the U.K.'s Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) announced.

The U.K. announced the names of and sanctions against three units of Russia's military intelligence unit, the GRU, and 18 of the units' intelligence officers on Friday for "a sustained campaign of malicious cyber activity over many years, including in the U.K.," the FCDO said.

The sanctioned units, the U.K. government said, had provided support for the 2022 Russian strikes against Mariupol, including the strike on the Mariupol Theatre, where hundreds, including children, were killed.

EU sanctions Gujarat refinery for buying Russian crude यूरोपीय संघ ने रूसी कच्चा तेल खरीदने पर गुजरात ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाया

EU Sanctions on Nayara Energy and Russian Oil Sector नायरा एनर्जी और रूसी तेल क्षेत्र पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध

- The **European Union (EU)** has sanctioned a **Gujarat-based refinery** owned by **Nayara Energy Ltd.** as part of a **fresh sanctions package** announced on **Friday** targeting **Russia's energy sector**.
यूरोपीय संघ (EU) ने नायरा एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व वाली गुजरात स्थित रिफाइनरी पर शुक्रवार को घोषित नए प्रतिबंध पैकेज के तहत रूस के ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित करते हुए प्रतिबंध लगाए हैं।
- The announcement comes just as the **U.S. Congress** debates **tightening sanctions** on **purchasers of Russian crude oil**, with **India, China and Brazil** being named by **U.S. lawmakers** as countries that could face **penalties**.
यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब अमेरिकी कांग्रेस रूसी कच्चे तेल के खरीदारों पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर चर्चा कर रही है, जिसमें भारत, चीन और ब्राज़ील को ऐसे देश बताया गया है जिन्हें दंड का सामना करना पड़ सकता है।

Oil Price Cap and Ban on Russian Products तेल मूल्य सीमा और रूसी उत्पादों पर प्रतिबंध

- The new **EU sanctions** also include a **lowering of the oil price cap**, from **\$60 per barrel** to **\$47.6 per barrel**.



नए EU प्रतिबंधों में तेल की अधिकतम कीमत सीमा को \$60 प्रति बैरल से घटाकर \$47.6 प्रति बैरल कर दिया गया है।

- The sanctions also include an **EU-wide import ban on refined petroleum products made from Russian crude oil.**
प्रतिबंधों में रूसी कच्चे तेल से बने शोधित पेट्रोलियम उत्पादों पर EU स्तर पर आयात प्रतिबंध भी शामिल है।
- A **full transaction ban** has been imposed on **Nord Stream 1 and 2**, the **natural gas pipelines** connecting **Russia and Germany.**
नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2, जो रूस और जर्मनी को जोड़ने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों पर पूर्ण लेन-देन प्रतिबंध लगाया गया है।

Slovakia's Consent and EU's Strategic Messaging स्लोवाकिया की सहमति और EU का रणनीतिक संदेश

- The announcement came after **Slovakia's Prime Minister Robert Fico** said he would stop **blocking the sanctions package** over fears for his country's **energy security.**
यह घोषणा तब आई जब स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने अपनी देश की ऊर्जा सुरक्षा की चिंता के कारण प्रतिबंध पैकेज को रोकने से इनकार कर दिया।
- **"For the first time, we're designating a flag registry and the biggest Rosneft refinery in India,"** said **Kaja Kallas**, the EU's **highest-ranking diplomat**, on X.
EU की शीर्ष राजनयिक काजा कैलास ने X पर कहा, "हम पहली बार एक झंडा रजिस्ट्री और भारत की सबसे बड़ी रोसनेफ्ट रिफाइनरी को सूचीबद्ध कर रहे हैं।"

Rosneft's Stake in Nayara and Refinery Details नायरा में रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी और रिफाइनरी का विवरण

- **Rosneft has a 49.13% stake in Nayara Energy's refinery** (formerly **Essar Oil Ltd.**) based in **Vadinar, Gujarat.**
रोसनेफ्ट की गुजरात के वडीनार स्थित नायरा एनर्जी की रिफाइनरी (पूर्व में एस्सार ऑयल लिमिटेड) में 49.13% हिस्सेदारी है।
- The remainder is owned by **SPV Kesani Enterprises Co. Ltd.**, and individual investors.
शेष हिस्सेदारी **SPV केसानी एंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड** और व्यक्तिगत निवेशकों के पास है।
- The refinery is **India's second largest**, producing **4,00,000 barrels per day** and operating **6,300+ petrol pumps** across India.
यह रिफाइनरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी है, जो प्रतिदिन 4,00,000 बैरल उत्पादन करती है और देशभर में 6,300 से अधिक पेट्रोल पंप संचालित करती है।
- The company has reportedly been in **talks with Reliance Industries Ltd.** regarding a **sale of its stake.**
कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ अपनी हिस्सेदारी की बिक्री को लेकर बातचीत की है।
- **"Each sanction weakens Russia's ability to wage war. The message is clear: Europe will not back down** in its support for **Ukraine,"** said **Ms. Kallas.**
सुश्री कैलास ने कहा, "हर प्रतिबंध रूस की युद्ध क्षमता को कमजोर करता है। संदेश स्पष्ट है: यूरोप यूक्रेन के समर्थन से पीछे नहीं हटेगा।"

Full-Fledged Sanctions on Nayara Refinery नायरा रिफाइनरी पर पूर्ण प्रतिबंध

- **'Full-fledged sanctions'** (including **travel bans, asset freezes, ban on providing resources**) will apply to the refinery as per the EU.



EU के अनुसार रिफाइनरी पर 'पूर्ण प्रतिबंध' (जैसे यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती, संसाधन प्रदान करने पर रोक) लागू होंगे।

Sanctions on Individuals, Entities, and Shadow Fleet

व्यक्तियों, संस्थाओं और छाया बेड़े पर प्रतिबंध

- The new package sanctions **14 individuals and 41 entities**, bringing the total number of **EU-listed entities to over 2,500**.
नए पैकेज में **14 व्यक्तियों और 41 संस्थाओं** पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे EU सूचीबद्ध संस्थाओं की कुल संख्या **2,500 से अधिक** हो गई है।
- It also contains enhanced sanctions on **Russia's so-called 'shadow fleet'** — ships that are **sanctioned or transacting in sanctioned goods**.
इसमें **रूस के तथाकथित 'छाया बेड़े'** पर भी **कड़े प्रतिबंध** शामिल हैं — ऐसे जहाज जो **प्रतिबंधित या प्रतिबंधित वस्तुओं से लेनदेन करते हैं**।
- An additional **105 vessels** will now be subject to a **ban from accessing EU ports** and from a **wide range of maritime services**, bringing the total number of listed vessels to **444**.
अब **अतिरिक्त 105 जहाजों** पर **EU बंदरगाहों में प्रवेश और समुद्री सेवाओं** की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे सूचीबद्ध जहाजों की कुल संख्या **444** हो गई है।
- A **captain of a shadow fleet vessel** and **operator of an unnamed international flag registry** have also been **listed** (i.e., subject to sanctions).
एक **छाया बेड़े के जहाज के कप्तान** और एक **अनाम अंतरराष्ट्रीय झंडा रजिस्ट्री के संचालक** को भी **सूचीबद्ध किया गया है** (अर्थात प्रतिबंध लागू किए गए हैं)।

Enhanced Banking Sanctions

बैंकिंग प्रतिबंधों में सख्ती

- As part of **enhanced banking sanctions**, the number of **banks sanctioned** and the **breadth of the sanctions** is set to increase.
बैंकिंग प्रतिबंधों की सख्ती के तहत, **प्रतिबंधित बैंकों की संख्या** और **प्रतिबंधों का दायरा** बढ़ने वाला है।
- It will include a **total transaction ban for 45 Russian banks**.
इसमें **45 रूसी बैंकों** के लिए **पूर्ण लेन-देन प्रतिबंध** शामिल होगा।

Dual-Use Entities and Military Suppliers

दुअल-यूज़ संस्थाएं और सैन्य आपूर्तिकर्ता

- **26 new entities** have been added to the sanctions list for **supplying dual-use goods to Russia**.
26 नई संस्थाओं को **रूस को दोहरे उपयोग की वस्तुएं आपूर्ति करने** के लिए प्रतिबंध सूची में जोड़ा गया है।
- More companies have been sanctioned for **supplying to Russia and Belarus's military-industrial complex**, as per a statement from the **European Council**.
यूरोपीय परिषद के बयान के अनुसार **रूस और बेलारूस के सैन्य-औद्योगिक परिसर** को आपूर्ति करने वाली **और कंपनियों** पर प्रतिबंध लगाया गया है।

New Oil Cap and UK Measures

नई तेल सीमा और यूके के कदम

- The new **oil price cap** — set at **15% below the average market price of Russian crude** — while not adopted by the entire **G7**, was also adopted by the **U.K.**



नई तेल मूल्य सीमा — जो रूसी कच्चे तेल की औसत बाजार कीमत से 15% कम है — भले ही पूरे G7 द्वारा न अपनाई गई हो, लेकिन इसे U.K. ने भी अपनाया है।

- The U.K.'s Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) announced sanctions against three units of Russia's GRU military intelligence and 18 intelligence officers.

यू.के. के फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) ने रूस की GRU सैन्य खुफिया इकाई की तीन इकाइयों और 18 खुफिया अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की।

Sanctions for Cyber Attacks and Mariupol Strikes साइबर हमलों और मारियुपोल हमलों पर प्रतिबंध

- The U.K. government said the sanctioned units had provided support for the 2022 Russian strikes against Mariupol, including the strike on the Mariupol Theatre, where hundreds, including children, were killed.

यू.के. सरकार ने कहा कि प्रतिबंधित इकाइयों ने 2022 में रूस द्वारा मारियुपोल पर किए गए हमलों, विशेष रूप से मारियुपोल थिएटर पर हमले, जिसमें सैकड़ों लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, मारे गए, में सहायता प्रदान की थी।

Govt. demonstrates fake 'verified' X account in HC

Solicitor-General shows X handle in the name of 'Supreme Court of Karnataka' to the High Court; X Corp. says 'Sahyog' portal enabling censorship through Centre's use of Section 79 of the IT Act

GS II: FR
The Hindu Bureau
BENGALURU

The Union government on Friday presented before the High Court of Karnataka a fake social media account, created by its officials on social media platform X in the name of 'Supreme Court of Karnataka' — an institution that does not exist — to demonstrate how easily such accounts can be created and misused.

The account, which was verified by X, was created solely for demonstrative purposes, Solicitor-General of India Tushar Mehta clarified to the court while showing the account on a mobile phone.

"We have opened one account in the name of 'Supreme Court of Karnataka'... and X has also verified the account. Now I can post anything in that account and lakhs and lakhs of people who view that will say that Supreme Court of Karnataka has said this... and I can re-



Legal battle: Advocate appearing for the social media platform had objected to the presentation of the fake account. AFP

X corp. had, in the court, challenged blocking orders issued by Central and State authorities

main anonymous," Mr. Mehta said.

The submission was made before Justice M. Nagprasanna during the hearing of a petition filed by X Corp. (formerly Twitter Inc.), which has challenged blocking orders is-

sued by Central and State authorities under Section 79 of the Information Technology Act.

The platform has alleged that these actions bypass safeguards laid down by the Supreme Court.

The petition also raises objections to the Union government's new 'Sahyog' portal, describing it as a "censorship portal" that enables government agencies to issue blocking orders using a pre-approved template.

Senior advocate K.G. Raghavan, appearing for X, objected to the presentation of the fake account without placing any related material formally on record. The judge, however, noted that the Centre was attempting to show how easily such accounts can be created on intermediary platforms.

Mr. Mehta further clarified that the account had not been used and remained inactive, as it would have entered the public domain otherwise. He added that the intention was only to demonstrate the potential misuse of any social media platform, not just X.

'Account suspended'
Following the conclusion of Mr. Mehta's arguments defending the Sahyog portal and blocking orders, Mr. Raghavan informed the court that the fake account titled "Supreme Court of Karnataka" had now been suspended. He reiterated that X is "a responsible business house".

Govt. demonstrates fake 'verified' X account in HC

सरकार ने हाईकोर्ट में फर्जी 'सत्यापित' एक्स खाते का प्रदर्शन किया

Solicitor-General shows X handle in the name of 'Supreme Court of Karnataka' to the High Court; X Corp. says 'Sahyog' portal enabling censorship through Centre's use of Section 79 of the IT Act

सॉलिसिटर जनरल ने उच्च न्यायालय को 'कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट' के नाम से एक्स हैंडल दिखाया; एक्स कॉर्प ने कहा कि 'सहयोग' पोर्टल केंद्र द्वारा आईटी अधिनियम की धारा 79 के उपयोग के माध्यम से

सेंसरशिप को सक्षम कर रहा है

- The Union government on Friday presented before the High Court of Karnataka a fake social media account, created by its officials on platform X, in the name of



‘Supreme Court of Karnataka’ — an institution that does not exist — to demonstrate how easily such accounts can be created and misused.

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष एक फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट प्रस्तुत किया, जिसे उसके अधिकारियों ने X प्लेटफॉर्म पर ‘सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक’ के नाम से बनाया — जो एक अस्तित्वहीन संस्था है — यह दिखाने के लिए कि ऐसे अकाउंट कितनी आसानी से बनाए और दुरुपयोग किए जा सकते हैं।

- The **account**, which was **verified by X**, was created solely for **demonstrative purposes**, Solicitor-General of India **Tushar Mehta** clarified to the court while showing the account on a **mobile phone**.

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मोबाइल फोन पर अकाउंट दिखाते हुए स्पष्ट किया कि यह अकाउंट, जिसे X द्वारा सत्यापित किया गया था, केवल प्रदर्शन के उद्देश्य से बनाया गया था।

- “We have opened one account in the name of ‘Supreme Court of Karnataka’... and X has also verified the account. Now I can post anything in that account and lakhs and lakhs of people who view that will say that Supreme Court of Karnataka has said this... and I can remain anonymous,” Mr. Mehta said.

“हमने ‘सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक’ के नाम से एक अकाउंट बनाया है... और X ने भी इसे सत्यापित किया है। अब मैं उस अकाउंट से कुछ भी पोस्ट कर सकता हूँ और लाखों लोग जो उसे देखेंगे, कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक ने ऐसा कहा है... और मैं गुमनाम रह सकता हूँ,” श्री मेहता ने कहा।

Petition by X Corp. and Court Hearing

X कॉर्प द्वारा याचिका और न्यायालय में सुनवाई

- The submission was made before **Justice M. Nagaprasanna** during the hearing of a **petition filed by X Corp.** (formerly Twitter Inc.), which has challenged **blocking orders** issued by **Central and State authorities** under **Section 79 of the Information Technology Act**.

यह प्रस्तुति न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना के समक्ष की गई, जब X कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती दी गई है।

- The platform has alleged that these actions **bypass safeguards** laid down by the **Supreme Court**.

प्लेटफॉर्म ने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सुरक्षा उपायों को नज़रअंदाज़ करती है।

- The petition also raises objections to the Union government’s new **‘Sahyog’ portal**, describing it as a **“censorship portal”** that enables **government agencies** to issue **blocking orders** using a **pre-approved template**.

याचिका में केंद्र सरकार के नए ‘सहयोग’ पोर्टल पर भी आपत्ति जताई गई है, जिसे एक “सेंसरशिप पोर्टल” कहा गया है, जो सरकारी एजेंसियों को पूर्व-स्वीकृत टेम्पलेट के माध्यम से ब्लॉकिंग आदेश जारी करने की अनुमति देता है।

Objections and Court Observations

आपत्तियाँ और न्यायालय की टिप्पणियाँ

- Senior advocate **K.G. Raghavan**, appearing for X, **objected** to the presentation of the **fake account** without placing any **related material formally on record**. **X की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के.जी. राघवन** ने यह आपत्ति जताई कि **फर्जी अकाउंट** दिखाने के बावजूद उससे संबंधित **कोई भी सामग्री औपचारिक रूप से रिकॉर्ड में नहीं रखी गई**।
- The judge, however, noted that the **Centre** was attempting to show how **easily such accounts** can be created on **intermediary platforms**.

हालांकि न्यायाधीश ने यह नोट किया कि केंद्र यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि **मध्यस्थ प्लेटफॉर्म** पर इस प्रकार के **फर्जी अकाउंट** कितनी आसानी से बनाए जा सकते हैं।



Clarification and Account Suspension

स्पष्टीकरण और अकाउंट निलंबन

- Mr. Mehta further clarified that the account had **not been used** and remained **inactive**, as it would have **entered the public domain** otherwise.
श्री मेहता ने आगे स्पष्ट किया कि यह अकाउंट **उपयोग में नहीं लाया गया** और **अक्रियाशील** रखा गया, क्योंकि अन्यथा यह **सार्वजनिक डोमेन में आ जाता**।
- He added that the intention was only to **demonstrate the potential misuse** of any **social media platform**, not just **X**.
उन्होंने यह भी कहा कि उद्देश्य केवल **किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संभावित दुरुपयोग** को दिखाना था, केवल **X** को नहीं।
- Following the conclusion of Mr. Mehta's arguments **defending the Sahyog portal and blocking orders**, Mr. Raghavan informed the court that the **fake account titled "Supreme Court of Karnataka" had now been suspended**.
श्री मेहता की ओर से **सहयोग पोर्टल और ब्लॉकिंग आदेशों** का बचाव समाप्त होने के बाद, श्री राघवन ने अदालत को बताया कि **"सुप्रीम कोर्ट ऑफ कर्नाटक" नामक फर्जी अकाउंट अब निलंबित कर दिया गया है**।
- He reiterated that **X is "a responsible business house."**
उन्होंने दोहराया कि **X एक "जिम्मेदार व्यावसायिक संस्था" है**।

PATRIOTIC IAS



Indian inequality and the World Bank's claims

GS III: Inequality

Inequality is an important concern for the political economy of a democracy. However, the Indian inequality debate is often characterised by the selective use of data to make exaggerated claims that fuel misperceptions rather than result in a better understanding. The sharp reactions to a recent World Bank report ("India Poverty and Equity Brief: April 2025") are an illustrative case in point.

The World Bank report claims that India has almost eradicated extreme poverty. Further, it claims, the country has significantly reduced consumption inequality since 2011-12, in terms of consumption patterns of the population. In terms of the Gini coefficient, a measure of inequality, the report (without separating the consumption and income inequality-based estimates) has placed India among the top four least unequal countries. These findings have created quite a stir, as the media and the public are accustomed to reports claiming very high inequality in India. What has happened?

What it is based on

The World Bank's claims about the Indian inequality are based on the official Household Consumption Expenditure Survey (HCES) data for 2022-2023. This data is collected using the modified mixed reference period (MMRP) method, which employs the state-of-the-art statistical technique. As the World Bank report correctly observes, "The MMRP is considered an improvement and alignment with international best practices..." The World Bank has adjusted the Indian data to account for some but not all government-provided free goods and services.

The World Bank finds that during 2011-12 and 2022-23, India registered a major decline in consumption inequality; in this period, the consumption-based Gini coefficient dropped from 28.8 to 25.5.

Critics of the report argue that the World Bank has underestimated the inequality, as the HCES data does not capture consumption by the rich. It is a valid critique, but India is not an exception. This limitation applies to all survey data in all countries and, in itself, does not question the broad ranking of countries. Even if we discount the precision of the World Bank's inequality estimates, a significant improvement in India's international ranking is a fact. Of course, we should not confuse consumption inequality with income inequality.

The decrease in India's consumption inequality is substantial and indisputable. To address the data issue, let us assume that the problem of missing elite consumption is more pronounced in India – say, the HCES rounds do not capture consumption by the top 5% families at all. In that case, going by the consumption expenditure data, it is irrefutable that the consumption inequality has decreased between 2011-12 and 2022-23 for the remaining 95% of the



Ram Singh

is Director, Delhi School of Economics, Member, Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India (RBI), and Member, Technical Expert Group for the First Household Income Survey, Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), Government of India

population covered in HCES data.

The HCES data show that the country's consumption basket is healthier today than ever. Between 2012 and 2023, the per capita availability of milk and eggs has increased by 45% and 63%, respectively. The availability of fruits, vegetables and protein products has increased. The share of cereals in the food bill, as well as calorie intake, has decreased, while that of healthier products has increased, for all strata. All this improves the diet for the 95%, rather than the richest groups, whose consumption already matches the best in the world.

The dietary intake improvements are most striking for the bottom 20% of households in rural and urban areas, even if we ignore the free food and cash transfers received by these groups. The share of rural households consuming fresh fruits (to a different frequency) has increased from 63.8% in 2011-12 to 90% in 2023.

The 2022-23 and 2023-24 rounds of consumption data irrefutably demonstrate that extreme poverty has been almost eradicated. Whether we use the Rangarajan, Tendulkar, or the multi-dimensional poverty index of NTI Aayog, poverty has declined significantly. Based on the International Poverty Line of \$3 between 2011 and 2023, India has pulled around 27 crore people out of extreme poverty.

Independently, the nightlight data show a significant increase in ownership rates of pucca homes and paved roads in rural areas over the last 10 years, owing to the Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. Among the poorest 20% of households, more than 40% own a vehicle today, compared to just 6% in 2011-12. This enables rural workers to work part-time in nearby cities without having to migrate. If we factor in these and the other policies targeted at the bottom of the pyramid, such as Ayushman Bharat, the aggregates of welfare for the poor would look even better.

Examining income levels

True, it is important to examine income inequality separately from consumption inequality. There is no official income survey data yet. The mainstream media and commentators use the income shares of the top 1%, as estimated by the World Inequality Lab (WIL) to argue that the income inequality is very high in India, disregarding critical limitations of these estimates.

Given the lack of data on income distribution, the WIL uses the income tax data to estimate top income levels. They use the old consumption data and estimates of the income-consumption relationship to estimate income for low- and middle-income households. The latter estimates unrealistically assume that consumption expenditure exceeds income for 70%-80% of households. How can it be that all families,

except the top 20-30%, spend more than they earn, year after year?

As an inevitable consequence of using such an implausible assumption, the income of the bottom 80% gets underestimated. This reduces their estimated share of national income. Conversely, shares of top income groups are overestimated.

Even if we ignore these limitations, we do not find an increase in income inequality. Taking the WIL estimates as they stand, the national income shares of the bottom 50% have increased from 13.9% in 2017 to 15% in 2022. During the same period, the share of the top 10% has decreased from 58.8% to 57.7%.

The high national income shares of the top 1% are a matter of concern. However, since 2017, the income shares of the top 1% have increased by only 0.3 percentage points. Research by this writer indicates that a part of this increase is attributable to improved income reporting by affluent groups in response to the Centre's anti-tax evasion measures since 2016-17. Better reporting should not be mistaken for increased inequality.

Furthermore, the WIL inequality estimates used by the media and commentators are based on pre-tax income levels. However, it is the post-tax and post-subsidy/transfer income that matters to people. Therefore, to be meaningful, income inequality estimates should be based on the post-tax rather than the pre-tax income. For instance, in the assessment year 2023-24, the top 1% of all taxpayers accounted for 72.77% of the total tax paid. Even in the individual category, the top 1% paid 42% of the total tax paid.

Arguably, wealthy individuals should pay more taxes, but the point is that even at the existing tax rates, the actual post-tax income of top-income taxpayers is only 65%-75% of the levels used in headline-grabbing estimates. For low-income groups, in contrast, the income levels used are smaller than the actual effective income, which is higher, due to the all-time high welfare transfers that account for more than 8% of GDP. On a post-subsidy, post-tax income basis, over the last decade, we will find a decrease in income inequality in recent years.

The other story about India

Admittedly, we must travel a long way before we can claim to be an egalitarian society. Inequality in accessing quality health and education is a serious concern. For a country of our size and diversity, inevitably, there are many lived realities. However, the story of India is not just about poverty and inequality any more; it is about progress and aspirations too. While being mindful of the current problems and challenges ahead, let us also celebrate the country's successes.

The views expressed are personal

Indian Inequality and the World Bank's Claims भारतीय असमानता और विश्व बैंक के दावे

- **Inequality** is an important concern for the **political economy** of a democracy. असमानता एक लोकतंत्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।
- However, the **Indian inequality debate** is often characterised by the **selective use of data** to make **exaggerated claims** that fuel **misperceptions** rather than result in a better understanding. हालांकि, भारतीय असमानता पर बहस अक्सर चुनिंदा आंकड़ों के उपयोग द्वारा अतिरंजित दावे करने की प्रवृत्ति से जुड़ी होती है, जो गलत धारणाओं को बढ़ावा देती है बजाय बेहतर समझ के।
- The sharp reactions to a recent **World Bank report** ("India Poverty and Equity Brief: April 2025") are an illustrative case in point.



हाल ही में आए विश्व बैंक की रिपोर्ट ("इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ़: अप्रैल 2025") पर तीखी प्रतिक्रियाएं इसका एक उदाहरण हैं।

- The World Bank report claims that **India has almost eradicated extreme poverty**. विश्व बैंक की रिपोर्ट का दावा है कि **भारत ने लगभग अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन कर दिया है**।
- Further, it claims, the country has **significantly reduced consumption inequality** since **2011-12**, in terms of **consumption patterns** of the population. इसके अलावा, रिपोर्ट का दावा है कि **2011-12** से देश ने **उपभोग पैटर्न** के संदर्भ में **उपभोग आधारित असमानता में उल्लेखनीय कमी** की है।
- In terms of the **Gini coefficient, a measure of inequality**, the **report (without separating the consumption and income inequality-based estimates) has placed India among the top four least unequal countries**. **असमानता के मापदंड** के रूप में **गिनी गुणांक** के अनुसार, रिपोर्ट (बिना उपभोग और आय आधारित असमानता को अलग किए) भारत को **चार सबसे कम असमान देशों** में गिनती है।
- These findings have created quite a stir, as the **media and public** are accustomed to reports claiming **very high inequality in India**. ये निष्कर्ष एक **बहस** का कारण बने, क्योंकि **मीडिया और जनता** भारत में **बहुत अधिक असमानता** का दावा करने वाली रिपोर्टों की आदी रही है।

What has happened?

क्या हुआ है?

- The World Bank's claims about the Indian inequality are based on the official **Household Consumption Expenditure Survey (HCES)** data for **2022-2023**. भारत में असमानता को लेकर विश्व बैंक के दावे **2022-2023** के आधिकारिक **घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES)** डेटा पर आधारित हैं।
- This data is collected using the **Modified Mixed Reference Period (MMRP)** method, which employs the **state-of-the-art statistical technique**. यह डेटा **संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (MMRP)** पद्धति से एकत्र किया गया है, जो **उन्नत सांख्यिकीय तकनीक** का उपयोग करती है।
- As the World Bank report correctly observes, "The MMRP is considered an improvement and alignment with **international best practices**..." जैसा कि विश्व बैंक रिपोर्ट सही रूप से कहती है, "MMRP को **अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं** के अनुरूप और एक सुधार माना जाता है..."
- The World Bank has adjusted the Indian data to account for **some but not all government-provided free goods and services**. विश्व बैंक ने भारत के डेटा को समायोजित करते हुए **कुछ लेकिन सभी नहीं सरकारी मुफ्त वस्तुओं और सेवाओं** को शामिल किया है।
- The World Bank finds that during **2011-12 and 2022-23**, India registered a **major decline in consumption inequality**; in this period, the **consumption-based Gini coefficient** dropped from **28.8 to 25.5**. विश्व बैंक के अनुसार, **2011-12 से 2022-23** के बीच भारत में **उपभोग असमानता में बड़ी गिरावट दर्ज की गई**; इस अवधि में **उपभोग आधारित गिनी गुणांक 28.8 से घटकर 25.5** हो गया।

Critiques and Counterpoints

आलोचनाएं और जवाब

- Critics of the report argue that the **World Bank has underestimated the inequality**, as the HCES data does not **capture consumption by the rich**. रिपोर्ट के आलोचकों का कहना है कि **विश्व बैंक ने असमानता को कम करके आंका है**, क्योंकि HCES डेटा **अमीरों की खपत को नहीं दर्शाता**।



- It is a valid critique, but India is not an exception.
यह एक **मान्य आलोचना** है, लेकिन भारत **इसमें अकेला नहीं है**।
- This limitation applies to **all survey data in all countries**, and, in itself, does not question the **broad ranking of countries**.
यह सीमा **सभी देशों के सर्वेक्षण डेटा** पर लागू होती है और अपने आप में देशों की **कुल रैंकिंग** पर सवाल नहीं उठाती।
- Even if we discount the **precision** of the World Bank's inequality estimates, a **significant improvement** in India's **international ranking** is a **fact**.
भले ही हम विश्व बैंक के असमानता अनुमान की **सटीकता** को नजरअंदाज करें, भारत की **अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार** एक तथ्य है।
- Of course, we should not **confuse consumption inequality with income inequality**.
निश्चित रूप से हमें **उपभोग आधारित असमानता को आय आधारित असमानता से नहीं मिलाना चाहिए**।
- **The decrease in India's consumption inequality is substantial and indisputable**.
भारत में **उपभोग असमानता में कमी महत्वपूर्ण और निर्विवाद है**।
- To address the data issue, let us assume that the problem of missing elite consumption is more pronounced in India — say, the HCES rounds do not capture consumption by the top 5% families at all.
डेटा समस्या को संबोधित करने के लिए, मान लेते हैं कि भारत में शीर्ष वर्ग के उपभोग को डेटा में शामिल न करने की समस्या अधिक गंभीर है — मान लें कि HCES सर्वेक्षणों में शीर्ष 5% परिवारों के उपभोग को पूरी तरह नहीं पकड़ा गया है।
- In that case, going by the consumption expenditure data, it is irrefutable that the consumption inequality has decreased between 2011-12 and 2022-23 for the remaining 95% of the population covered in HCES data.
ऐसी स्थिति में, उपभोग व्यय आंकड़ों के अनुसार, यह निर्विवाद है कि 2011-12 से 2022-23 के बीच HCES डेटा में शामिल शेष 95% जनसंख्या के लिए उपभोग असमानता में कमी आई है।
- The HCES data show that the country's consumption basket is healthier today than ever.
HCES डेटा दिखाता है कि आज देश की उपभोग टोकरी पहले से कहीं अधिक स्वस्थ है।
- Between 2012 and 2023, the per capita availability of milk and eggs has increased by 45% and 63%, respectively.
2012 से 2023 के बीच, प्रति व्यक्ति दूध और अंडों की उपलब्धता क्रमशः 45% और 63% बढ़ी है।
- The availability of fruits, vegetables and protein products has increased.
फलों, सब्जियों और प्रोटीन उत्पादों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।
- The share of cereals in the food bill, as well as calorie intake, has decreased, while that of healthier products has increased, for all strata.
खाद्य बिल और कैलोरी सेवन में अनाज की हिस्सेदारी कम हुई है, जबकि स्वस्थ उत्पादों की हिस्सेदारी सभी वर्गों में बढ़ी है।
- All this improves the diet for the 95%, rather than the richest groups, whose consumption already matches the best in the world.
यह सब उन 95% लोगों के आहार को बेहतर बनाता है, ना कि सबसे अमीर समूहों के, जिनका उपभोग पहले से ही दुनिया के सर्वोत्तम स्तर के समान है।
- The dietary intake improvements are most striking for the bottom 20% of households in rural and urban areas, even if we ignore the free food and cash transfers received by these groups.
**ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निचले 20% परिवारों के लिए आहार सेवन में सुधार सबसे अधिक उल्लेखनीय है, यहां तक कि यदि हम इन समूहों को मिलने वाले मुफ्त भोजन और नकद अंतरण की अनदेखी करें तब भी।



- The share of rural households consuming fresh fruits (to a different frequency) has increased from 63.8% in 2011-12 to 90% in 2023.
ताज़े फलों का सेवन करने वाले ग्रामीण परिवारों की हिस्सेदारी 2011-12 में 63.8% से बढ़कर 2023 में 90% हो गई है।
- The 2022-23 and 2023-24 rounds of consumption data irrefutably demonstrate that extreme poverty has been almost eradicated.
**2022-23 और 2023-24 के उपभोग आंकड़े यह निर्विवाद रूप से दर्शाते हैं कि चरम गरीबी लगभग समाप्त हो गई है।
- Whether we use the Rangarajan, Tendulkar, or the multi-dimensional poverty index of NITI Aayog, poverty has declined significantly.
चाहे हम रंगराजन, तेन्दुलकर, या नीति आयोग का बहु-आयामी गरीबी सूचकांक उपयोग करें, गरीबी में महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
- Based on the International Poverty Line of \$3 between 2011 and 2023, India has pulled around 27 crore people out of extreme poverty.
2011 से 2023 के बीच \$3 अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर, भारत ने लगभग 27 करोड़ लोगों को चरम गरीबी से बाहर निकाला है।
- Independently, the nightlight data show a significant increase in ownership rates of pucca homes and paved roads in rural areas over the last 10 years, owing to the Pradhan Mantri Gramin Awaz Yojana and Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.
स्वतंत्र रूप से, नाइटलाइट डेटा दिखाता है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकानों और पक्की सड़कों की मालिकाना दरों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।
- Among the poorest 20% of households, more than 40% own a vehicle today, compared to just 6% in 2011-12.
सबसे गरीब 20% परिवारों में, आज 40% से अधिक के पास वाहन है, जबकि 2011-12 में यह आंकड़ा केवल 6% था।
- This enables rural workers to work part-time in nearby cities without having to migrate.
यह ग्रामीण मजदूरों को बिना पलायन किए नजदीकी शहरों में आंशिक रूप से काम करने की सुविधा देता है।
- If we factor in these and the other policies targeted at the bottom of the pyramid, such as Ayushman Bharat, the aggregates of welfare for the poor would look even better.
यदि हम इन नीतियों और आयुष्मान भारत जैसी पिरामिड के निचले तबके पर लक्षित अन्य योजनाओं को ध्यान में रखें, तो गरीबों के लिए कुल कल्याण आंकड़े और बेहतर प्रतीत होंगे।

Examining Income Levels

आय स्तरों की जाँच

- **True**, it is important to examine **income inequality** separately from **consumption inequality**.
सही है, आय असमानता की जाँच को खपत असमानता से अलग करना महत्वपूर्ण है।
- There is **no official income survey data** yet.
अब तक कोई आधिकारिक आय सर्वेक्षण डेटा उपलब्ध नहीं है।
- The **mainstream media** and **commentators** use the income shares of the **top 1%**, as estimated by the **World Inequality Lab (WIL)** to argue that the income inequality is **very high in India**, disregarding **critical limitations** of these estimates.
मुख्यधारा मीडिया और टिप्पणीकार **World Inequality Lab (WIL)** द्वारा अनुमानित शीर्ष 1% की आय हिस्सेदारी का उपयोग यह तर्क देने के लिए करते हैं कि भारत में आय असमानता बहुत अधिक है, जबकि वे इन अनुमानों की गंभीर सीमाओं की अनदेखी करते हैं।



- Given the **lack of data** on income distribution, the WIL uses the **income tax data** to estimate **top income levels**.
चूंकि आय वितरण पर डेटा की कमी है, WIL आयकर डेटा का उपयोग करके शीर्ष आय स्तरों का अनुमान लगाता है।
- They use the **old consumption data** and estimates of the **income-consumption relationship** to estimate income for **low- and middle-income households**.
वे पुराने खपत डेटा और आय-खपत संबंध के अनुमानों का उपयोग निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों की आय का अनुमान लगाने के लिए करते हैं।
- The latter estimates **unrealistically assume** that **consumption expenditure exceeds income** for **70%-80%** of households.
ये अनुमान अवास्तविक रूप से मानते हैं कि 70%-80% परिवारों में खपत व्यय, आय से अधिक होता है।
- How can it be that **all families**, except the **top 20-30%**, spend **more than they earn**, year after year?
यह कैसे संभव है कि शीर्ष 20-30% को छोड़कर सभी परिवार हर साल अपनी कमाई से अधिक खर्च करते हैं?
- As an inevitable consequence of using such an **implausible assumption**, the income of the **bottom 80%** gets **underestimated**.
ऐसे अवास्तविक अनुमान का अनिवार्य परिणाम यह होता है कि निचले 80% की आय को कमतर आंका जाता है।
- This reduces their **estimated share of national income**.
इससे उनकी अनुमानित राष्ट्रीय आय हिस्सेदारी घट जाती है।
- Conversely, shares of **top income groups** are **overestimated**.
इसके विपरीत, शीर्ष आय समूहों की हिस्सेदारी अधिक आंकी जाती है।
- Even if we **ignore these limitations**, we do not find an **increase in income inequality**.
भले ही हम इन सीमाओं को नजरअंदाज करें, हमें आय असमानता में वृद्धि नहीं दिखाई देती।
- Taking the **WIL estimates** as they stand, the **national income shares** of the **bottom 50%** have **increased from 13.9% in 2017 to 15% in 2022**.
यदि हम WIL के अनुमानों को स्वीकार करें, तो निचले 50% की राष्ट्रीय आय हिस्सेदारी 2017 में 13.9% से बढ़कर 2022 में 15% हो गई है।
- During the same period, the share of the **top 10%** has **decreased from 58.8% to 57.7%**.
इसी अवधि में, शीर्ष 10% की हिस्सेदारी 58.8% से घटकर 57.7% हो गई है।
- The **high national income shares of the top 1%** are a **matter of concern**.
शीर्ष 1% की ऊंची राष्ट्रीय आय हिस्सेदारी एक चिंता का विषय है।
- However, since 2017, the **income shares of the top 1%** have **increased by only 0.3 percentage points**.
हालांकि, 2017 से, शीर्ष 1% की आय हिस्सेदारी में केवल 0.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।
- Research by this writer indicates that a part of this increase is attributable to **improved income reporting** by **affluent groups** in response to the Centre's **anti-tax evasion measures** since 2016-17.
लेखक के अनुसार, इस वृद्धि का एक हिस्सा 2016-17 से केंद्र की कर चोरी विरोधी उपायों के कारण धनाढ्य वर्गों द्वारा बेहतर आय रिपोर्टिंग से संबंधित है।
- **Better reporting** should not be mistaken for **increased inequality**.
बेहतर रिपोर्टिंग को बढ़ी हुई असमानता नहीं समझा जाना चाहिए।
- Furthermore, the WIL inequality estimates used by the media and commentators are based on **pre-tax income levels**.
इसके अलावा, मीडिया और टिप्पणीकारों द्वारा उपयोग किए गए WIL के असमानता अनुमान कर पूर्व आय स्तरों पर आधारित हैं।



- However, it is the **post-tax and post-subsidy/transfer income** that matters to people.
हालांकि, **करोत्तर और सब्सिडी/हस्तांतरण के बाद की आय** ही लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है।
- Therefore, to be meaningful, income inequality estimates should be based on the **post-tax income**.
अतः, आय असमानता के **सार्थक अनुमान** के लिए उन्हें **करोत्तर आय** पर आधारित होना चाहिए।
- For instance, in the assessment year **2023-24**, the **top 1% of all taxpayers** accounted for **72.77% of the total tax paid**.
उदाहरण के लिए, आकलन वर्ष **2023-24** में, **सभी करदाताओं में से शीर्ष 1%** ने **कुल कर भुगतान का 72.77%** योगदान किया।
- Even in the individual category, the **top 1% paid 42%** of the total tax paid.
व्यक्तिगत श्रेणी में भी, **शीर्ष 1% ने कुल कर का 42%** भुगतान किया।
- Arguably, **wealthy individuals should pay more taxes**, but the point is that even at the **existing tax rates**, the **actual post-tax income** of top-income taxpayers is only **65%-75%** of the levels used in headline-grabbing estimates.
तर्क किया जा सकता है कि **धनाढ्य व्यक्तियों को अधिक कर देना चाहिए**, लेकिन बात यह है कि मौजूदा कर दरों पर भी, **शीर्ष आयकरदाताओं की वास्तविक करोत्तर आय** सिर्फ **65%-75%** होती है, जो **मीडिया रिपोर्ट में दिखाई गई स्तरों से कम है**।
- For **low-income groups**, in contrast, the **income levels used are smaller** than the actual **effective income**, which is higher due to the **all-time high welfare transfers** that account for **more than 8% of GDP**.
इसके विपरीत, **निम्न आय वर्गों के लिए प्रयुक्त आय स्तर** वास्तविक **प्रभावी आय** से कम हैं, जो **इतिहास में सबसे ऊँचे कल्याण हस्तांतरणों के कारण GDP के 8% से अधिक हैं**।
- On a **post-subsidy, post-tax income basis**, over the last decade, we will find a **decrease in income inequality in recent years**.
यदि हम **सब्सिडी और कर कटौती के बाद की आय** के आधार पर देखें, तो **पिछले दशक में हमें हालिया वर्षों में आय असमानता में कमी दिखाई देगी**।

The Other Story About India

भारत की दूसरी कहानी

- Admittedly, we must travel a long way before we can claim to be an **egalitarian society**.
यह स्वीकार किया जा सकता है कि हमें एक **समानतावादी समाज** बनने के लिए लंबा रास्ता तय करना है।
- **Inequality in accessing quality health and education** is a serious concern.
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच में असमानता एक गंभीर चिंता है।
- For a country of our **size and diversity**, inevitably, there are many **lived realities**.
हमारे **आकार और विविधता** वाले देश के लिए, कई **वास्तविकताएँ** स्वाभाविक हैं।
- However, the story of India is not just about **poverty and inequality** any more; it is about **progress and aspirations** too.
लेकिन भारत की कहानी अब केवल **गरीबी और असमानता** की नहीं रही; यह **प्रगति और आकांक्षाओं** की भी है।
- While being mindful of the **current problems and challenges ahead**, let us also **celebrate the country's successes**.
वर्तमान **समस्याओं और चुनौतियों** को ध्यान में रखते हुए, हमें देश की **सफलताओं का भी उत्सव** मनाना चाहिए।



Syrian forces set to re-enter Sweida as clashes restart

GS II: West Asia

Associated Press

MAZRAA

Renewed clashes broke out overnight between **Druze armed groups and members of Bedouin clans** in southern Syria, and government forces were preparing to deploy again to the area on Friday after pulling out under a cease-fire agreement that halted several days of violence earlier this week, officials said.

Government security forces agreed with some of the Druze factions that they would re-enter the area to impose stability and protect state institutions, according to two Syrian officials who spoke on Friday. Bedouin groups arrived on Friday from other areas of Syria to join the fight.

Thousands of people re-



Fighters from Bedouin tribes near the al-Mazraa village in Sweida, as clashes with Druze gunmen continue on Friday. AFP

mained displaced by the violence and the United Nations has been unable to bring in much-needed humanitarian and medical aid because of ongoing clashes.

The conflict drew air strikes against Syrian forces by neighbouring Israel in defence of the Druze minority before most of the fighting was halted by a truce announced on Wednesday

that was mediated by the U.S., Turkiye and Arab countries. Under that agreement, Druze factions and clerics would be left to maintain internal security in Sweida, Syria's interim President Ahmad al-Sharaa, also known as Abu Mohammad al-Jolani, said on Thursday.

DRUZE MOURN LOSSES
» PAGE 13

क्षेत्र में तैनाती की तैयारी कर रहे थे, इससे पहले सप्ताह में के तहत उन्होंने क्षेत्र छोड़ दिया था, अधिकारियों ने कहा।

- **Government security forces** agreed with some of the **Druze factions** that they would **re-enter the area to impose stability** and **protect state institutions**, according to two Syrian officials who spoke on **Friday**.

सरकारी सुरक्षा बलों ने कुछ द्रूज़ गुटों से यह सहमति बनाई कि वे क्षेत्र में पुनः प्रवेश करेंगे ताकि स्थिरता कायम की जा सके और राज्य संस्थानों की रक्षा की जा सके, यह जानकारी शुक्रवार को दो सीरियाई अधिकारियों ने दी।

- **Bedouin groups arrived on Friday** from other areas of Syria to **join the fight**. बेदौइन समूह शुक्रवार को सीरिया के अन्य क्षेत्रों से लड़ाई में शामिल होने पहुंचे।

Humanitarian Situation and International Reactions

मानवीय स्थिति और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं

- **Thousands of people remained displaced** by the violence and the **United Nations** has been unable to bring in **humanitarian and medical aid** because of **ongoing clashes**.

हिंसा के कारण हजारों लोग विस्थापित बने हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र मानवीय और चिकित्सीय सहायता नहीं पहुंचा पाया है, क्योंकि झड़पें अब भी जारी हैं।

- The conflict drew **air strikes against Syrian forces** by **neighbouring Israel** in **defence of the Druze minority** before most of the fighting was halted by a **truce announced on Wednesday**, mediated by the **U.S., Turkiye and Arab countries**. इस संघर्ष के कारण पड़ोसी देश इज़राइल ने सीरियाई बलों पर हवाई हमले किए, जो द्रूज़

Syrian forces set to re-enter Sweida as clashes restart

सीरियाई सेनाएँ स्वेदा में पुनः प्रवेश करने के लिए तैयार, झड़पें फिर से शुरू

Renewed Clashes in Southern Syria

दक्षिण सीरिया में फिर से झड़पें शुरू

- **Renewed clashes broke out overnight** between **Druze armed groups and members of Bedouin clans in southern Syria**, and **government forces were preparing to deploy again** to the area on **Friday** after pulling out under a **cease-fire agreement** that halted several days of violence earlier this week, officials said.

दक्षिण सीरिया में द्रूज़ सशस्त्र समूहों और बेदौइन कबीले के सदस्यों के बीच रात भर में फिर से झड़पें शुरू हो गईं, और सरकारी बल शुक्रवार को फिर से

हिंसा रोकने के लिए युद्धविराम समझौते



अल्पसंख्यक की रक्षा में थे, इससे पहले कि बुधवार को युद्धविराम की घोषणा के जरिए अधिकांश लड़ाई रोक दी गई, यह अमेरिका, तुर्किए और अरब देशों की मध्यस्थता से हुआ।

Security Agreement in Sweida स्वेदा में सुरक्षा समझौता

- Under that agreement, **Druze factions and clerics would be left to maintain internal security in Sweida**, Syria's interim President Ahmad al-Sharaa, also known as **Abu Mohammad al-Jolani**, said on **Thursday**.

उस समझौते के तहत, स्वेदा में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दूज़ गुटों और धर्मगुरुओं को दी जाएगी, यह बात सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शाराआ, जिन्हें अबू मोहम्मद अल-जोलेनी के नाम से भी जाना जाता है, ने गुरुवार को कही।

Syria's Druze find bodies of loved ones in streets after days of clashes

The fighting began with tit-for-tat kidnappings and attacks between local Sunni Bedouin tribes and Druze militias; at least 600 people, combatants and civilians on both sides, were killed, according to a Syrian observatory; more than half of the roughly one million Druze worldwide live in Syria

GS II: West Asia

Associated Press
JARAMANA

A Syrian Druze woman living in the United Arab Emirates frantically tried to keep in touch with her family in her hometown in southern Syria as clashes raged there over the past days.

Her mother, father and sister sent videos of their neighbours fleeing as fighters moved in. The explosions from shelling were non-stop, hitting near their house. Her family took shelter in the basement. When she reached them later in a video call, they said her father was missing. He had gone out during a lull to check the situation and never returned.

Hours later, they learned he had been shot and killed by a sniper. The woman spoke on condition of anonymity.

A ceasefire went into effect late on Wednesday, easing days of brutal clashes in Sweida. Now, members of its Druze community who fled or went into hiding are returning to search for loved ones and count their losses. They are finding homes looted and bloodied bodies of civilians in the streets.

The fighting began with tit-for-tat kidnappings and attacks between local Sunni Bedouin tribes and Druze militias in the major-



Brutal clashes: Bedouin fighters patrol the streets of Sweida in Syria, as clashes with the Druze militias resume following the collapse of a ceasefire on Friday. GETTY IMAGES

ity-Druze Sweida province. Government forces that intervened to restore order clashed with the Druze militias, but also in some cases attacked civilians.

At least 600 people – combatants and civilians on both sides – were killed in four days of clashes, according to the Syrian Observatory for Human Rights, a Britain-based war monitor. It said the dead included more than 80 civilians, mostly Druze, who were rounded up by fighters and collectively shot to death in what the monitor called “field executions.”

“These are not individual acts but systemic,” the Observatory’s director Rami Abdul-Rahman said. “All the violations are

there. You can see from the bodies that are all over the streets in Sweida clearly show they are shot in the head.”

Retaliatory attacks

In response, Druze militias have targeted Bedouin families in revenge attacks since the ceasefire was reached. Footage shared on Syrian state media shows Bedouin families fleeing with reports of renewed skirmishes in those areas. There was no word on casualties in those attacks.

The Druze religious sect is an offshoot of Ismailism, a branch of Shia Islam. More than half of the roughly one million Druze worldwide live in Syria.

The others live in Lebanon and Israel, including in the Golan Heights, which Israel captured from Syria in the 1967 Mideast War and annexed in 1981.

They largely celebrated the downfall in December of Syrian autocrat Bashar Assad but were divided over interim President Ahmad al-Sharaa’s Sunni Islamist rule. The latest violence has left the community more sceptical of Syria’s new leadership and doubtful of peaceful coexistence.

One Syrian-American Druze said of his fear as he watched the clashes from the United States and tried to account for his family and friends whom he had seen in a recent trip to his

native city Sweida. Despite internet and communications breakdowns, he tracked down his family. His mother and brother fled because their home was shelled and raided, he said. Their belongings were stolen. Their neighbours’ house was burned down. Two other neighbours were killed, one by shelling, another by stray bullets, he said.

He also pored over online videos of the fighting, finding a harrowing footage. It showed gunmen in military uniform forcing a number of men in civilian clothes to kneel in the street in a well-known roundabout in Sweida. The gunmen then spray the men with automatic fire, their bodies dropping to the ground.

To his horror, he recognised the men. One was a close family friend – another Syrian American on a visit to Sweida from the U.S. The others were the friend’s brother, father, three uncles and a cousin. Friends he reached out told him that government forces had raided the house where they were all staying and took them outside and shot them.

New leadership vows

“We affirm that protecting your rights and freedoms is among our top priorities,” Mr. al-Sharaa said on Thursday, promising to

hold perpetrators of civilian killings to account.

But some rights groups accused Syria’s interim government of systematic sectarian violence.

Footage widely circulated on social media showed some of the carnage. One video shows a living room with several bodies on the floor and bullet holes in the walls and sofa.

In another, there are at least nine bloodied bodies in one room of the home of a family that took in people fleeing the fighting. Portraits of Druze notables are visible, smashed on the floor.

Evelyn Azzam, a Druze woman, is searching the Damascus suburb of Jaramana, trying to find out what happened to her husband, Robert Kiwan.

Last week, Kiwan left home for his job in Sweida. He got caught up in the chaos when the clashes erupted. Azzam was on the phone with him. She heard a gunshot when one of the coworkers raised his voice.

Then she heard another gunshot; her husband was shot in the hip. An ambulance took him to a hospital. But she hasn’t heard anything since and doesn’t know if he survived.

“I can’t imagine a world where I would be able to go back and integrate with these monsters,” said a Syrian-American back in the U.S.



Syria's Druze find bodies of loved ones in streets after days of clashes

सीरिया के डूज़ लोगों को कई दिनों की झड़पों के बाद सड़कों पर अपने प्रियजनों के शव मिले

The fighting began with tit-for-tat kidnappings and attacks between local Sunni Bedouin tribes and Druze militias; at least 600 people, combatants and civilians on both sides, were killed, according to a Syrian observatory; more than half of the roughly one million Druze worldwide live in Syria

लड़ाई स्थानीय सुन्नी बेडौइन जनजातियों और डूज़ मिलिशिया के बीच अपहरण और हमलों के साथ शुरू हुई; एक सीरियाई वेधशाला के अनुसार, दोनों पक्षों के कम से कम 600 लोग, लड़ाके और नागरिक मारे गए; दुनिया भर में लगभग दस लाख डूज़ में से आधे से अधिक सीरिया में रहते हैं

- A Syrian Druze woman living in the United Arab Emirates frantically tried to keep in touch with her family in her hometown in southern Syria as clashes raged there over the past days.
संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाली एक सीरियाई डूज़ महिला ने बीते दिनों में दक्षिण सीरिया में हो रही झड़पों के दौरान अपने परिवार से संपर्क बनाए रखने की बेतहाशा कोशिश की।
- Her mother, father and sister sent videos of their neighbours fleeing as fighters moved in. The explosions from shelling were non-stop, hitting near their house. Her family took shelter in the basement.
उसकी मां, पिता और बहन ने ऐसे वीडियो भेजे जिसमें पड़ोसी भाग रहे थे, क्योंकि लड़ाके पास आ रहे थे। गोलेबारी के धमाके लगातार हो रहे थे, जो उनके घर के पास तक पहुंच गए। उसका परिवार तहखाने में छिप गया।
- When she reached them later in a video call, they said her father was missing. He had gone out during a lull to check the situation and never returned.
जब उसने बाद में वीडियो कॉल पर उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि उसका पिता लापता हो गया है। वह स्थिति देखने बाहर गया था और वापस नहीं लौटा।
- Hours later, they learned he had been shot and killed by a sniper. The woman spoke on condition of anonymity.
कुछ घंटों बाद उन्हें पता चला कि उसे एक साइपर ने गोली मार दी थी और वह मारा गया। महिला ने गुमनाम रहने की शर्त पर बात की।

Aftermath of the Ceasefire

युद्धविराम के बाद की स्थिति

- A ceasefire went into effect late on Wednesday, easing days of brutal clashes in Sweida. Now, Druze community members who fled or went into hiding are returning to search for loved ones and count their losses.
बुधवार देर रात युद्धविराम लागू हुआ, जिससे स्वेदा में कई दिनों से जारी भीषण झड़पें शांत हुईं। अब, भागे हुए या छिपे हुए डूज़ समुदाय के सदस्य वापस लौट रहे हैं ताकि वे अपने प्रियजनों को खोज सकें और अपने नुकसानों का आकलन कर सकें।
- They are finding homes looted and bloodied bodies of civilians in the streets. उन्हें लूटे गए घर और सड़कों पर आम नागरिकों की लथपथ लाशें मिल रही हैं।

Origins and Impact of the Fighting

लड़ाई की शुरुआत और प्रभाव



- The fighting began with **tit-for-tat kidnappings and attacks** between local **Sunni Bedouin tribes** and **Druze militias** in the majority-Druze **Sweida province**.
यह लड़ाई स्थानीय सुन्नी बेदौइन जनजातियों और द्रूज़ मिलिशिया के बीच बदले की अपहरण और हमलों से शुरू हुई, जो अधिकांश द्रूज़ आबादी वाले स्वेदा प्रांत में हुई।
- **Government forces** that intervened to restore order **clashed with the Druze militias**, but also in some cases **attacked civilians**.
व्यवस्था बहाल करने आई सरकारी सेनाएं द्रूज़ मिलिशिया से भिड़ गईं, और कुछ मामलों में उन्होंने नागरिकों पर भी हमला किया।
- At least **600 people** — combatants and civilians on both sides — were **killed in four days** of clashes, according to the **Syrian Observatory for Human Rights**.
सीरियन ऑब्ज़र्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, चार दिनों की झड़पों में कम से कम 600 लोग, दोनों पक्षों के लड़ाके और नागरिक, मारे गए।
- The dead included **more than 80 civilians**, mostly **Druze**, who were **rounded up** by fighters and **collectively shot to death** in what the monitor called **“field executions.”**
मारे गए लोगों में 80 से अधिक नागरिक, जिनमें अधिकांश द्रूज़ थे, शामिल थे, जिन्हें लड़ाकों ने घेर कर सामूहिक रूप से गोली मार दी, जिसे संस्था ने “मैदानी हत्याएं” कहा।
- “These are not individual acts but **systemic**,” said the Observatory’s director **Rami Abdul-Rahman**.
संस्था के निदेशक रामी अब्दुल-रहमान ने कहा, “ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठित घटनाएं हैं।”
- “You can see from the **bodies all over the streets in Sweida** — they were **shot in the head.**”
“आप देख सकते हैं कि स्वेदा की सड़कों पर पड़ी लाशों को — सिर में गोली मारी गई थी।”

Retaliation and Sectarian Tensions

प्रतिशोध और सांप्रदायिक तनाव

- In response, **Druze militias** have **targeted Bedouin families** in **revenge attacks** since the **ceasefire** was reached.
जवाब में, द्रूज़ मिलिशिया ने बेदौइन परिवारों को निशाना बनाया है युद्धविराम के बाद से बदले के हमलों में।
- Footage on **Syrian state media** shows **Bedouin families fleeing** with reports of **renewed skirmishes** in those areas.
सीरियाई राज्य मीडिया में दिखाया गया कि बेदौइन परिवार भाग रहे थे, और उन क्षेत्रों में फिर से झड़पें शुरू होने की खबरें हैं।
- There was **no word on casualties** in those attacks.
उन हमलों में किसी हताहत की कोई जानकारी नहीं है।

Background on the Druze Community

द्रूज़ समुदाय की पृष्ठभूमि

- The **Druze religious sect** is an **offshoot of Ismailism**, a branch of **Shia Islam**.
द्रूज़ धार्मिक संप्रदाय इस्माइली मत की एक शाखा है, जो शिया इस्लाम से जुड़ा है।
- More than **half of the roughly one million Druze worldwide** live in **Syria**.
दुनिया भर में लगभग दस लाख द्रूज़ों में से आधे से अधिक सीरिया में रहते हैं।
- The rest live in **Lebanon and Israel**, including in the **Golan Heights**, which **Israel captured in the 1967 Mideast War** and **annexed in 1981**.
बाकी लेबनान और इज़राइल में रहते हैं, जिनमें गोलन हाइट्स भी शामिल है, जिसे इज़राइल ने 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में हथियाया और 1981 में अपने में मिला लिया।



Distrust Toward Syrian Leadership

सीरियाई नेतृत्व के प्रति अविश्वास

- They largely celebrated the **downfall in December of Syrian autocrat Bashar Assad**, but were **divided over interim President Ahmad al-Sharaa's Sunni Islamist rule**.
उन्होंने दिसंबर में सीरियाई तानाशाह बशर अल-असद के पतन का खुशी से स्वागत किया, लेकिन अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शराआ के सुन्नी इस्लामी शासन को लेकर विभाजित हो गए।
- The **latest violence** has left the community **more sceptical of Syria's new leadership and doubtful of peaceful coexistence**.
हालिया हिंसा ने समुदाय को सीरिया के नए नेतृत्व के प्रति और अधिक संदेहपूर्ण बना दिया है और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर संदेह पैदा कर दिया है।

Personal Accounts of Trauma and Loss

व्यक्तिगत अनुभव: आघात और नुकसान

- One **Syrian-American Druze** said he **watched the clashes** from the U.S. and tried to **account for his family and friends in Sweida**.
एक सीरियाई-अमेरिकी द्रूज़ ने कहा कि उन्होंने अमेरिका से झड़पों को देखा और स्वेदा में अपने परिवार और दोस्तों की जानकारी लेने की कोशिश की।
- His **mother and brother fled** as their home was **shelled and raided**.
उनकी मां और भाई भाग गए, क्योंकि उनका घर गोलाबारी और छापे का शिकार हुआ।
- Their **belongings were stolen**, and their **neighbours' house burned down**.
उनके सामान चुरा लिए गए, और पड़ोसियों का घर जला दिया गया।
- Two **neighbours were killed**, one by **shelling**, another by **stray bullets**.
दो पड़ोसी मारे गए, एक को गोलेबारी और दूसरे को छरों की गोली लगी।
- He found **harrowing footage** online showing **gunmen forcing men to kneel** in a **Sweida roundabout**, then **spraying them with automatic fire**.
उन्होंने ऑनलाइन एक भयावह वीडियो देखा जिसमें बंदूकधारियों ने लोगों को स्वेदा के चौराहे पर घुटनों के बल बैठाया, फिर उन्हें स्वचालित हथियारों से गोलियों से छलनी कर दिया।
- To his **horror**, he **recognized the victims** — one a **close family friend**, others were his **brother, father, three uncles, and a cousin**.
यह देख कर वह हैरान रह गया क्योंकि वह पीड़ितों को पहचान गया — एक करीबी पारिवारिक मित्र, और बाकी उसके भाई, पिता, तीन चाचा और एक चचेरा भाई थे।
- Friends told him that **government forces raided** the house where they were staying and **executed them outside**.
दोस्तों ने बताया कि सरकारी बलों ने उस घर पर छापा मारा जहां वे रह रहे थे और उन्हें बाहर ले जाकर गोली मार दी।

Official Response and Doubts

सरकारी प्रतिक्रिया और संदेह

- "We affirm that **protecting your rights and freedoms** is among our **top priorities**," **Mr. al-Sharaa** said on **Thursday**, promising to **hold perpetrators accountable**.
श्री अल-शराआ ने गुरुवार को कहा, "हम आपके अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा को अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में मानते हैं," और दोषियों को सजा देने का वादा किया।
- But some **rights groups accused Syria's interim government of systematic sectarian violence**.
लेकिन कुछ मानवाधिकार समूहों ने सीरिया की अंतरिम सरकार पर संगठित सांप्रदायिक हिंसा का आरोप लगाया।



- Footage on social media showed carnage — a living room with bodies on the floor and bullet holes in walls and furniture.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तबाही दिखी — एक लिविंग रूम, जिसमें लाशें फर्श पर पड़ी थीं, और दीवारों व सोफे पर गोलियों के निशान थे।
- Another video showed nine bloodied bodies in one room of a home that sheltered fleeing civilians. Portraits of Druze notables were seen smashed on the floor.
एक अन्य वीडियो में एक घर के कमरे में नौ लथपथ लाशें दिखीं, जहां भागते नागरिकों को शरण दी गई थी। दूज़ नेताओं की तस्वीरें फर्श पर टूटी हुई पड़ी थीं।

Missing Persons and Personal Anguish लापता व्यक्ति और व्यक्तिगत पीड़ा

- Evelyn Azzam, a Druze woman, searched the Damascus suburb of Jaramana, trying to find her husband, Robert Kiwan.
एवलिन अज़म, एक दूज़ महिला, दमिश्क के जारामाना उपनगर में अपने पति रॉबर्ट किवान को खोजने निकलीं।
- Last week, Kiwan left for work in Sweida. During the clashes, she was on a call with him when she heard a gunshot after someone raised his voice.
पिछले हफ्ते, किवान स्वेदा में अपने काम पर गए। झड़प के दौरान वह उनसे फोन पर बात कर रही थीं, तभी एक गोली की आवाज सुनी जब किसी ने जोर से कुछ कहा।
- Then she heard another gunshot; her husband was shot in the hip and taken to a hospital, but she hasn't heard anything since.
फिर दूसरी गोली की आवाज आई; उनके पति को कमर में गोली लगी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली।
- "I can't imagine a world where I would be able to go back and integrate with these monsters," said a Syrian-American back in the U.S.
एक सीरियाई-अमेरिकी नागरिक ने अमेरिका से कहा, "मैं ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकती जहां मैं वापस जाकर इन राक्षसों के साथ फिर से मिल सकूं।"

TOPICS COVERED (GS Paper III: Economy, S&T, Environment, DM, IS)

1. U.S. adds TRF to terror list for Pahalgam strike
अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ को आतंकवादी सूची में डाला
2. Nine get life imprisonment for 'digital arrest' fraud
'डिजिटल गिरफ्तारी' धोखाधड़ी के लिए नौ को आजीवन कारावास
3. Nistar, first indigenous diving support vessel, commissioned into Navy
निस्तार, पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत, नौसेना में शामिल



4. Platform fee an 'industry standard,' 'inevitable' outcome

प्लेटफॉर्म शुल्क एक 'उद्योग मानक', 'अपरिहार्य' परिणाम

5. SEBI moves to curb high volatility in electricity futures सेबी ने बिजली वायदा में उच्च अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठाए

U.S. adds TRF to terror list for Pahalgam strike

The Resistance Front declared a 'Specially Designated Global Terrorist and 'Foreign Terrorist Organisation'

Jaishankar calls it an 'affirmation of India-U.S. counter-terrorism cooperation'

This shows the Trump administration's commitment to enforcing President's call for justice, says Rubio

GS III: Internal Security

Kalol Bhattacharjee
NEW DELHI

In a move that is being viewed as an endorsement of India's international counter-terror campaign, the United States on Thursday designated The Resistance Front (TRF) as a 'Foreign Terrorist Organisation' and 'Specially Designated Global Terrorist'. The TRF, backed by the Pakistan-based Lashkar-e-Taiba militant group, claimed to be behind the deadly April 22 terror attack that left 26 people dead in Pahalgam.

The Indian government welcomed the U.S. designation of the TRF as a terror group, with External Affairs Minister S. Jaishankar describing the move as "a strong affirmation of India-U.S. counter-terrorism cooperation". The Exter-

nal Affairs Ministry added that India's cooperation with international partners will continue to ensure "that terrorist organisations and their proxies are held accountable".

"Today, the Department of State is adding The Resistance Front (TRF) as a designated Foreign Terrorist Organisation (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT). TRF, a Lashkar-e-Taiba (LeT) front and proxy, claimed responsibility for the April 22, 2025, Pahalgam attack which killed 26 civilians," said U.S. Secretary of State Marco Rubio.

Deadliest attack

"This was the deadliest attack on civilians in India since the 2008 Mumbai attacks conducted by LeT. TRF has also claimed responsibility for several at-

Terror trail

The U.S. designation follows India's global campaign against cross-border terrorism launched after the April 22 Pahalgam terrorist attack.

Following Operation Sindoor, the Indian government sent a technical team with a comprehensive dossier on The Resistance Front to New York for presentation



The evidence was presented to the 1267 Sanctions Committee that decides on global listing of terrorist groups

India had designated the TRF as a terror outfit under Unlawful Activities (Prevention) Act in January 2023

Under scrutiny:

Security personnel at the Pahalgam terror attack site in J&K. IMRAN NISSAR

Pakistan's LeT proxy: Founded in 2019 by Muhammad Abbas Sheikh, the TRF is a Pakistan-based Lashkar-e-Taiba proxy that claimed responsibility for the Pahalgam attack

tacks against Indian security forces, including most recently in 2024," Mr. Rubio said.

He added that the decision on the TRF "demonstrates" the Trump administration's "commitment to protecting our national security interests, counter-

ing terrorism, and enforcing President Trump's call for justice for the Pahalgam attack."

In response, Mr. Jaishankar said: "A strong affirmation of India-U.S. counter-terrorism cooperation. Appreciate Secretary Rubio and State Department for

designating TRF – a LeT proxy – as a Foreign Terrorist Organisation (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT). It claimed responsibility for the April 22 Pahalgam attack. Zero tolerance for terrorism."

Following the Pahalgam

terror attack India had started a campaign to bring a global ban on TRF. The UN Security Council passed a resolution on the Pahalgam attack on 25 April that condemned the attack but stopped short of naming the TRF. After Operation Sindoor that targeted terror facilities and military bases in Pakistan, India launched a global campaign by sending multi-party delegations abroad and also sent a technical team to New York to present evidence regarding the Pahalgam terror attack to the Monitoring Team of the 1267 Sanctions Committee that decides on the global listing of terrorist groups. Concerns on terrorism featured also in the 1 July Quad Foreign Ministers meeting held in Washington where a joint statement "strongly"

condemned the Pahalgam attack.

'Timely step'

The Ministry of External Affairs highlighted India's international campaign against terrorism and described the designation of TRF as a "timely and important step" that reflects "deep cooperation between India and the United States on counter-terrorism."

"India remains committed to a policy of zero tolerance towards terrorism and will continue to work closely with its international partners to ensure that terrorist organizations and their proxies are held accountable," said the MEA appreciating the support from Mr. Rubio.

RELATED REPORT

» PAGE 3

U.S. adds TRF to terror list for Pahalgam strike

अमेरिका ने पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ को आतंकवादी सूची में डाला

U.S. Designates TRF as Foreign Terrorist Organisation

अमेरिका ने TRF को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया

- In a move that is being viewed as an endorsement of India's international counter-terror campaign, the United States on Thursday designated The Resistance Front (TRF) as a 'Foreign Terrorist Organisation' and 'Specially Designated Global Terrorist'.

इसे भारत के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी अभियान का समर्थन माना जा रहा है, अमेरिका ने गुरुवार को The Resistance Front (TRF) को 'विदेशी आतंकवादी संगठन' और 'विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी' घोषित किया।

- The TRF, backed by the Pakistan-based Lashkar-e-Taiba militant group, claimed to be behind the deadly April 22 terror attack that left 26 people dead in Pahalgam.



पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा समर्थित TRF ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।

- The Indian government welcomed the U.S. designation of the TRF as a terror group, with External Affairs Minister S. Jaishankar describing the move as “a strong affirmation of India-U.S. counter-terrorism cooperation”.

भारतीय सरकार ने TRF को आतंकवादी समूह घोषित किए जाने के अमेरिकी फैसले का स्वागत किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे “भारत-अमेरिका आतंकवाद-रोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि” बताया।

- The External Affairs Ministry added that India’s cooperation with international partners will continue to ensure “that terrorist organisations and their proxies are held accountable”.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग जारी रखेगा ताकि “आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों को जवाबदेह ठहराया जा सके”।

Designation Announcement by U.S. State Department अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा घोषणा

- “Today, the Department of State is adding The Resistance Front (TRF) as a designated Foreign Terrorist Organisation (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT).

“आज, विदेश विभाग ने The Resistance Front (TRF) को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) घोषित किया है।

- TRF, a Lashkar-e-Taiba (LeT) front and proxy, claimed responsibility for the April 22, 2025, Pahalgam attack which killed **26 civilians,” said U.S. Secretary of State Marco Rubio.

लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का सामने वाला संगठन और प्रतिनिधि TRF ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, की जिम्मेदारी ली,” यह बात अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कही।

Deadliest Attack Since 2008 Mumbai Attacks 2008 मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक हमला

- “This was the deadliest attack on civilians in India since the 2008 Mumbai attacks conducted by LeT.

“यह भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था 2008 के मुंबई हमलों के बाद, जिन्हें LeT ने अंजाम दिया था।

- TRF has also claimed responsibility for several attacks against Indian security forces, including most recently in 2024,” Mr. Rubio said.

TRF ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें 2024 के हालिया हमले भी शामिल हैं,” श्री रुबियो ने कहा।

- He added that the decision on the TRF “demonstrates the Trump administration’s commitment to protecting our national security interests, countering terrorism, and enforcing President Trump’s call for justice for the Pahalgam attack.”

उन्होंने कहा कि TRF पर यह निर्णय “ट्रंप प्रशासन की हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा, आतंकवाद से लड़ने और पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को लागू करने की प्रतिबद्धता” को दर्शाता है।

India’s Response and Diplomatic Efforts भारत की प्रतिक्रिया और राजनयिक प्रयास

- In response, Mr. Jaishankar said: “A strong affirmation of India-U.S. counterterrorism cooperation. Appreciate Secretary Rubio and State



Department for designating TRF — a LeT proxy — as a Foreign Terrorist Organisation (FTO) and Specially Designated Global Terrorist (SDGT).

प्रतिक्रिया में, श्री जयशंकर ने कहा: “भारत-अमेरिका आतंकवाद-रोधी सहयोग की मजबूत पुष्टि। सचिव रुबियो और विदेश विभाग को TRF — LeT का प्रतिनिधि — को FTO और SDGT घोषित करने के लिए धन्यवाद।”

- It claimed responsibility for the **April 22 Pahalgam attack**. **Zero tolerance for terrorism**.

इसने 22 अप्रैल के पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता।

Global Campaign and Operation Sindoor

वैश्विक अभियान और ऑपरेशन सिंदूर

- Following the **Pahalgam terror attack**, India started a campaign to bring a **global ban on TRF**.

पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, भारत ने TRF पर वैश्विक प्रतिबंध लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया।

- The **UN Security Council** passed a **resolution on the Pahalgam attack on 25 April** that condemned the attack but **stopped short of naming the TRF**.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 अप्रैल को पहलगाम हमले पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हमले की निंदा की गई लेकिन TRF का नाम नहीं लिया गया।

- After **Operation Sindoor**, that targeted **terror facilities and military bases in Pakistan**, India launched a **global campaign** by sending **multi-party delegations abroad** and also sent a **technical team to New York** to present evidence regarding the **Pahalgam terror attack** to the **Monitoring Team of the 1267 Sanctions Committee**.

ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, के बाद भारत ने एक वैश्विक अभियान शुरू किया, जिसके तहत कई दलों के प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे गए और एक तकनीकी टीम न्यूयॉर्क भेजी गई ताकि 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को पहलगाम हमले के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकें।

Quad and International Cooperation

क्वाड और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

- Concerns on terrorism featured also in the **1 July Quad Foreign Ministers meeting** held in **Washington** where a **joint statement “strongly” condemned the Pahalgam attack**.

1 जुलाई को वाशिंगटन में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई, जहां संयुक्त बयान में पहलगाम हमले की “कड़े शब्दों में” निंदा की गई।

‘Timely Step’ - India’s MEA

‘समय पर कदम’ - भारत का विदेश मंत्रालय

- The **Ministry of External Affairs** highlighted India’s **international campaign against terrorism** and described the designation of TRF as a “**timely and important step**” that reflects “**deep cooperation between India and the United States on counter-terrorism**.”

विदेश मंत्रालय ने भारत के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभियान को रेखांकित किया और TRF को आतंकवादी घोषित करने को एक “समय पर और महत्वपूर्ण कदम” बताया जो “भारत और अमेरिका के बीच गहरे आतंकवाद-रोधी सहयोग” को दर्शाता है।

- “**India remains committed to a policy of zero tolerance towards terrorism** and will continue to **work closely with its international partners** to ensure that **terrorist organizations and their proxies are held accountable**,” said the MEA



appreciating the support from Mr. Rubio.

“भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के लिए प्रतिबद्ध है और अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करता रहेगा ताकि आतंकवादी संगठनों और उनके सहयोगियों को जवाबदेह ठहराया जा सके,” यह बात विदेश मंत्रालय ने श्री रुबियो के समर्थन की सराहना करते हुए कही।

Nine get life imprisonment for 'digital arrest' fraud

GS III: Internal Security

Shrabana Chatterjee

KOLKATA

A West Bengal court sentenced nine people to life imprisonment on Friday for their involvement in a “digital arrest” scam. This is among the first such convictions in India and the first in West Bengal.

The 70-year-old victim lost ₹1 crore and was under “digital arrest” for almost seven days. According to the victim, he was asked to deposit money into various accounts by a WhatsApp caller, who identified himself as sub-inspector Hemraj Koli of the Andheri police station in Mumbai.

The police found out that the calls, though originating from India, were being rerouted through Cambodia and the money was siphoned through multiple accounts whose owners were spread across the country.

Of the 13 people arrested from Gujarat, Maharashtra, and Haryana, nine were convicted.

Multiple bank pass-books, ATM cards, SIM cards, and mobile phones were seized from the accused.

Arrests and Seizures
गिरफ्तारी और जब्ती

Nine get life imprisonment for 'digital arrest' fraud 'डिजिटल गिरफ्तारी' धोखाधड़ी के लिए नौ को आजीवन कारावास

Digital Arrest Scam Conviction in West Bengal पश्चिम बंगाल में डिजिटल अरेस्ट घोटाले में सजा

• A West Bengal court sentenced nine people to life imprisonment on Friday for their involvement in a “digital arrest” scam.

पश्चिम बंगाल की एक अदालत ने शुक्रवार को “डिजिटल अरेस्ट” घोटाले में शामिल नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

• This is among the first such convictions in India and the first in West Bengal.

यह भारत में ऐसे पहले मामलों में से एक है और पश्चिम बंगाल में पहला मामला है।

Details of the Victim and the Scam पीड़ित और घोटाले का विवरण

• The 70-year-old victim lost ₹1 crore and was under “digital arrest” for almost seven days.

70 वर्षीय पीड़ित ने ₹1 करोड़ गंवाए और लगभग सात दिनों तक “डिजिटल अरेस्ट” में रखा गया।

• According to the victim, he was asked to deposit money into various accounts by a WhatsApp caller, who identified himself as sub-inspector Hemraj Koli of the Andheri police station in Mumbai.

पीड़ित के अनुसार, एक व्हाट्सएप कॉलर ने खुद को मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर हेमराज कोली के रूप में पेश करते हुए उन्हें विभिन्न खातों में पैसे जमा करने को कहा।

Modus Operandi and Police Findings कार्यप्रणाली और पुलिस की जांच

• The police found out that the calls, though originating from India, were being rerouted through Cambodia and the money was siphoned through multiple accounts whose owners were spread across the country.

पुलिस ने पाया कि कॉल भारत से की जा रही थी, लेकिन कंबोडिया के माध्यम से पुनर्निर्देशित की जा रही थी और पैसा देशभर में फैले खाताधारकों के कई खातों के माध्यम से निकाला जा रहा था।



- Of the 13 people arrested from Gujarat, Maharashtra, and Haryana, nine were convicted.
गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा से गिरफ्तार किए गए 13 लोगों में से नौ को दोषी ठहराया गया।
- Multiple bank passbooks, ATM cards, SIM cards, and mobile phones were seized from the accused.
आरोपियों से कई बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए गए।

Nistar, first indigenous diving support vessel, commissioned into Navy

GS III: Defence

Saurabh Trivedi
NEW DELHI

The Indian Navy on Friday commissioned *INS Nistar*, the first indigenously designed and constructed diving support vessel, in the presence of Union Minister of State for Defence Sanjay Seth in Visakhapatnam.

The 118-metre ship, which is the first of two diving support vessels being built by Hindustan Shipyard Ltd., is designed to undertake complex deep sea saturation diving and rescue operations – a capability select navies possess across the globe.

Mr. Seth said the commissioning of *INS Nistar* firmly reinforces the role of the Indian Navy as the “first responder” and “preferred security partner” in the region. Supporting the indigenous shipbuilding industry has been one of the pillars of the government’s



Minister of State for Defence Sanjay Seth during the commissioning of *INS Nistar* on Friday in Visakhapatnam. V. RAJU

“Aatmanirbhar Bharat” campaign. At present, all of the 57 new warships in the pipeline are being constructed indigenously.

Critical support

Chief of the Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi termed *INS Nistar* as not just a technological asset, but a crucial operational enabler. “*Nistar* will provide critical submarine rescue support to the Indian Navy as well as our regional partners,” he said.

INS Nistar is installed with state-of-the-art diving equipment such as remotely operated vehicles, self-propelled hyperbaric life boat, diving compression chambers. It can undertake diving and salvage operations up to 300 metres depth. It would also serve as the “Mother Ship” for deep submergence rescue vessel to rescue and evacuate personnel, from a dived submarine in distress well below the surface.

undertake complex deep sea saturation diving and rescue operations — a capability select navies possess across the globe.

118-मीटर लंबा यह पोत, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे दो डाइविंग सपोर्ट पोतों में से पहला है, को जटिल गहरे समुद्री संतृप्त डाइविंग और बचाव अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है — यह क्षमता विश्व की चुनिंदा नौसेनाओं के पास है।

Strategic Importance and Aatmanirbhar Push
रणनीतिक महत्व और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम

Nistar, first indigenous diving support vessel, commissioned into Navy

निस्तार, पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत, नौसेना में शामिल

• The Indian Navy on Friday commissioned *INS Nistar*, the first indigenously designed and constructed diving support vessel, in the presence of Union Minister of State for Defence Sanjay Seth in Visakhapatnam.

शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने *INS निस्तार*, जो कि पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट पोत है, को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में विशाखापत्तनम में कमीशन किया।

• The 118-metre ship, which is the first of two diving support vessels being built by Hindustan Shipyard Ltd., is designed to



- Mr. Seth said the commissioning of **INS Nistar firmly reinforces** the role of the **Indian Navy** as the “**first responder**” and “**preferred security partner**” in the region.
श्री सेठ ने कहा कि **INS निस्तार का कमीशन क्षेत्र में भारतीय नौसेना की “प्रथम प्रतिक्रिया देने वाली” और “प्राथमिक सुरक्षा भागीदार” की भूमिका को मजबूती से स्थापित करता है।**
- Supporting the **indigenous shipbuilding industry** has been one of the **pillars of the government's “Aatmanirbhar Bharat” campaign.**
स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग का समर्थन सरकार के “आत्मनिर्भर भारत अभियान” के मुख्य स्तंभों में से एक रहा है।
- At present, **all of the 57 new warships** in the pipeline are being **constructed indigenously.**
वर्तमान में निर्माणाधीन 57 नए युद्धपोतों में से सभी का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है।

Technological and Operational Capabilities

प्रौद्योगिकी और संचालन क्षमताएँ

- **Chief of the Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi** termed **INS Nistar** as not just a **technological asset**, but a **crucial operational enabler.**
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने **INS निस्तार** को केवल एक प्रौद्योगिकीय संपत्ति नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण संचालन समर्थक बताया।
- “**Nistar will provide critical submarine rescue support** to the Indian Navy as well as our **regional partners,**” he said.
उन्होंने कहा, “**निस्तार भारतीय नौसेना के साथ-साथ हमारे क्षेत्रीय साझेदारों को भी महत्वपूर्ण पनडुब्बी बचाव सहायता प्रदान करेगा।**”
- **INS Nistar** is installed with **state-of-the-art diving equipment** such as **remotely operated vehicles, self-propelled hyperbaric life boat, diving compression chambers.**
INS निस्तार में उन्नत डाइविंग उपकरण लगे हैं जैसे कि रिमोट से संचालित वाहन, स्वचालित हाइपरबेरिक लाइफ बोट, डाइविंग कंप्रेशन चेंबर।
- It can undertake **diving and salvage operations up to 300 metres depth.**
यह **300 मीटर की गहराई तक डाइविंग और बचाव अभियान** को अंजाम दे सकता है।
- It would also serve as the “**Mother Ship**” for **deep submergence rescue vessel** to **rescue and evacuate personnel** from a **dived submarine in distress** well below the surface.
यह गहराई में डूबे संकटग्रस्त पनडुब्बी से **कर्मचारियों को बचाने और बाहर निकालने** के लिए **डीप सबमर्जेस रेस्क्यू वेसल** की “**मदर शिप**” के रूप में भी कार्य करेगा।



Agriculture needs more public spending, not just one umbrella scheme

The Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY), a scheme approved by the Union Cabinet, is to be implemented through the convergence of 36 existing schemes across 11 Departments. According to Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan, the scheme seeks to address the “disparities in productivity” between States, and even among districts within a State. The Centre’s pet schemes such as the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) and the PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) as well as relevant State schemes, to be identified by the District Dhan Dhaanya Samitis, will be subsumed in the PMDDKY. Local partnerships with the private sector will also be promoted under the proposed scheme, which will begin in October during the *rabi* crop season. The scheme is to get an annual outlay of ₹24,000 crore for six years. Modelled on NITI Aayog’s Aspirational Districts Programme, the Centre will identify 100 districts based on low productivity and cropping intensity and less credit disbursement. The hope is that the scheme will result in higher productivity, value addition in agriculture and allied sectors, local livelihood creation, leading to increased domestic production and self-reliance. This convergence of schemes must be viewed in the background of decreasing public spending on agriculture. The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, in the latest report on Demands for Grants, had observed a continuous decline, from 3.53% in 2021-22 to 3.14% (2022-23), 2.57% (2023-24), 2.54% (2024-25) and 2.51% (2025-26), of the allocations for agriculture as a percentage of total Central Plan outlay.

This aggregation of all schemes under one umbrella suggests that the Government wants uniformity in running the welfare, financial and technical schemes in the agriculture sector. It is keen to add States’ measures too in the new scheme. It remains to be seen how effective such uniformity will be on the ground as further decrease in public investment in agriculture could be disastrous. Private-public partnerships should be for the larger good of self-reliance, particularly in the production of foodgrains, edible oil and pulses. The progress of area coverage under *kharif* crops, released last week, points to a decrease in the sowing of oil seeds and popular pulses. Though it promotes national uniformity, it is welcome that the new scheme will function based on ‘District Plans’ that will be aligned to the national goals of crop diversification, conservation of water and soil health, self-sufficiency in agriculture and allied sectors. For the PMDDKY, the Centre will monitor 117 key indicators of progress on a monthly basis. But to make it more participatory, States, local self governments, primary agriculture cooperative societies, agriculture universities and organisations of farmers and traders must be involved in this process.

कम उत्पादकता, फसल तीव्रता और कम ऋण वितरण के आधार पर 100 जिलों की पहचान करेगी।

All in one: Agriculture needs more public spending, not just one umbrella scheme
सभी कुछ एक में: कृषि को केवल एक समग्र योजना नहीं, बल्कि अधिक सार्वजनिक खर्च की आवश्यकता है

Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY) प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY)

• The Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana (PMDDKY), a scheme approved by the Union Cabinet, is to be implemented through the convergence of 36 existing schemes across 11 Departments.

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY), जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, को 11 विभागों की 36 मौजूदा योजनाओं के एकीकरण के माध्यम से लागू किया जाएगा।

• According to Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan, the scheme seeks to address the “disparities in productivity” between States, and even among districts within a State.

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, यह योजना राज्यों के बीच और एक राज्य के भीतर जिलों के बीच “उत्पादकता में असमानताओं” को दूर करने का प्रयास करती है।

• The Centre’s pet schemes such as PM-KISAN and PM Fasal Bima Yojana (PMFBY) as well as relevant State schemes, to be identified by the District Dhan Dhaanya Samitis, will be subsumed in the PMDDKY.

केंद्र की प्रमुख योजनाएं जैसे कि पीएम-किसान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और जिलास्तरीय धन-धान्य समितियों द्वारा पहचानी जाने वाली राज्य की संबंधित योजनाएं PMDDKY में समाहित की जाएंगी।

• Local partnerships with the private sector will also be promoted under the proposed scheme, which will begin in October during the *rabi* crop season.

प्रस्तावित योजना के तहत निजी क्षेत्र के साथ स्थानीय साझेदारियों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो अक्टूबर में रबी फसल के मौसम के दौरान शुरू होगी।

• The scheme is to get an annual outlay of ₹24,000 crore for six years.

इस योजना को ₹24,000 करोड़ का वार्षिक परिव्यय छह वर्षों के लिए मिलेगा।

• Modelled on NITI Aayog’s Aspirational Districts Programme, the Centre will identify 100 districts based on low productivity, cropping intensity, and less credit disbursement.

नीति आयोग की आकांक्षी जिलों की योजना पर आधारित, केंद्र सरकार



- The hope is that the scheme will result in **higher productivity, value addition** in agriculture and allied sectors, **local livelihood creation**, leading to increased **domestic production** and **self-reliance**.
यह आशा की जा रही है कि योजना से **उच्च उत्पादकता**, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में **मूल्य संवर्धन**, **स्थानीय आजीविका सृजन** होगा, जिससे **घरेलू उत्पादन** और **आत्मनिर्भरता** में वृद्धि होगी।
- This convergence of schemes must be viewed in the background of **decreasing public spending** on agriculture.
इन योजनाओं के एकीकरण को कृषि पर **घटते सार्वजनिक व्यय** की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए।
- The Parliamentary Standing Committee on Agriculture, in the latest report on Demands for Grants, had observed a continuous decline, from **3.53% in 2021-22** to **2.51% in 2025-26**, of the allocations for agriculture as a percentage of total Central Plan outlay.
कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने अनुदानों की मांग पर नवीनतम रिपोर्ट में कृषि के लिए कुल केंद्रीय योजना व्यय में **2021-22 में 3.53% से घटकर 2025-26 में 2.51%** तक की निरंतर गिरावट को नोट किया।
- This aggregation of all schemes under one umbrella suggests that the Government wants **uniformity** in running the **welfare, financial, and technical** schemes in the agriculture sector.
सभी योजनाओं को एक छतरी के तहत समाहित करने का उद्देश्य यह संकेत देता है कि सरकार कृषि क्षेत्र में **कल्याण, वित्तीय और तकनीकी** योजनाओं के संचालन में **एकरूपता** चाहती है।
- It is keen to add **States' measures** too in the new scheme.
यह नई योजना में **राज्यों की योजनाओं** को भी शामिल करने की इच्छुक है।
- It remains to be seen how effective such uniformity will be on the ground as further decrease in public investment in agriculture could be **disastrous**.
यह देखना बाकी है कि ऐसी **एकरूपता** जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी होगी क्योंकि कृषि में सार्वजनिक निवेश में और गिरावट **विनाशकारी** हो सकती है।
- **Private-public partnerships** should be for the larger good of **self-reliance**, particularly in the production of **foodgrains, edible oil, and pulses**.
निजी-सार्वजनिक साझेदारियाँ खासकर **अन्न, खाद्य तेल और दालों** के उत्पादन में **आत्मनिर्भरता** के व्यापक हित के लिए होनी चाहिए।
- The progress of **area coverage under kharif crops**, released last week, points to a **decrease in the sowing of oil seeds and popular pulses**.
पिछले सप्ताह जारी **खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज की प्रगति** से तेल बीजों और लोकप्रिय **दालों की बोवाई में कमी** की ओर इशारा मिलता है।
- Though it promotes **national uniformity**, it is welcome that the new scheme will function based on '**District Plans**' aligned to **national goals of crop diversification, conservation of water and soil health, self-sufficiency** in agriculture and allied sectors.
यद्यपि यह योजना **राष्ट्रीय एकरूपता** को बढ़ावा देती है, यह स्वागत योग्य है कि यह योजना **फसल विविधीकरण, जल और मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, कृषि में आत्मनिर्भरता** जैसे **राष्ट्रीय लक्ष्यों** से जुड़े '**जिला योजनाओं**' के आधार पर संचालित होगी।
- **For the PMDDKY, the Centre will monitor 117 key indicators of progress on a monthly basis.**
PMDDKY के लिए केंद्र सरकार **117 प्रमुख प्रगति संकेतकों** की मासिक रूप से निगरानी करेगी।
- To make it more **participatory, States, local self governments, primary agriculture cooperative societies, agriculture universities, and organisations of farmers and traders** must be involved in this process.
इसे अधिक **भागीदारीपूर्ण** बनाने के लिए इस प्रक्रिया में **राज्य, स्थानीय स्वशासी निकाय, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ, कृषि विश्वविद्यालय, और किसानों एवं व्यापारियों के संगठन** को शामिल किया जाना चाहिए।



Platform fee an 'industry standard,' 'inevitable' outcome

As e-com/q-com firms eye turning profitable, platform fee has turned from a small experiment on Swiggy to something even Amazon charges

GS III: Taxation

Aroon Deep
NEW DELHI

What started off as a small experiment – a ₹2 “platform fee” on Swiggy in 2023 – has now grown into an industry standard across e-com and quick com platforms alike. The fee is no longer ₹2 either: Swiggy now charges ₹10 as a platform fee. There is GST applicable on top of this: a user fumed on social media site Reddit two years ago: “There’s now a GST on platform fee. A fee Zomato/Swiggy invented.”

The fees are netting relatively modest sums. Zomato said in a report for 2023-24 fiscal, the item earned ₹83 crore that year.

But they may be setting the stage for something larger: platform fees are now being charged across all major food and grocery delivery platforms, such as Blinkit, Swiggy, Zomato and Zepto. Even Amazon has started charging a ₹5 ‘marketplace fee’, something it doesn’t appear to charge users in other countries. Spokespersons for Swiggy and Zepto did not respond to a request for comment. A Zomato spokesperson said, “This fee helps us keep the app running smoothly, invest in



Growing revenue stream: Zomato said a report for 2023-24 fiscal, the item earned ₹83 crore that year. PTI

product improvements, and continue delivering a smooth and convenient experience for users. GST is applied as per government regulations and the restaurant’s confirmation.”

Amazon said in a blog post it wouldn’t be applicable on bill payments and digital purchases.

Many revenue sources

Platforms generally have multiple sources of revenue in a single order: while food delivery players make money from restaurants by charging a commission of 15-25%, grocery delivery apps own the inventory they’re selling, pocketing the margins of the products. But margins remain slim, Digvijay Ghosh, partner of consumer pro-

ducts and retail at EY-Parthenon told *The Hindu*.

Mr. Ghosh said it was ‘inevitable’ such fee would start being charged by platforms. “Obviously all the platforms are looking to have a focus on profitability and build on that.

The fee are a “growing concern from a consumer point of view,” Amol Kulkarni, director of research at Consumer Unity and Trust Society (CUTS), an advocacy group and a think tank, told *The Hindu*.

“If it is becoming an industry standard and all players are in tandem appearing to raise prices. There is a concern around anti-competitive practices and entities and platforms acting as a cartel to raise prices for consumers.”

Platform fee an 'industry standard,' 'inevitable' outcome प्लेटफॉर्म शुल्क एक 'उद्योग मानक', 'अपरिहार्य' परिणाम

As e-com/q-com firms eye turning profitable, platform fee has turned from a small experiment on Swiggy to something even Amazon charges

जैसे-जैसे ई-कॉम/क्यू-कॉम कंपनियां लाभ कमाने की ओर अग्रसर हो रही हैं, प्लेटफॉर्म शुल्क स्विगी पर एक छोटे से प्रयोग से बदलकर ऐसा हो गया है, जो अमेज़न भी वसूलता है।

• What started off as a small experiment — a ₹2 “platform fee” on Swiggy in 2023 — has now grown into an industry standard across e-com and quick com platforms alike.

2023 में स्विगी द्वारा ₹2 की “प्लेटफॉर्म फीस” के रूप में शुरू किया गया एक छोटा प्रयोग अब ई-कॉम और क्विक-कॉम प्लेटफॉर्म में एक उद्योग मानक बन चुका है।

• The fee is no longer ₹2 either: Swiggy now charges ₹10 as a platform fee.

यह शुल्क अब ₹2 नहीं रहा: स्विगी अब ₹10 की प्लेटफॉर्म फीस वसूलता है।

• There is GST applicable on top of this: a user fumed on Reddit two years ago: “There’s now a GST on platform fee. A fee Zomato/Swiggy invented.”

इस पर GST भी लागू होता है: एक उपयोगकर्ता ने दो साल पहले Reddit पर नाराज़गी जताई थी: “अब प्लेटफॉर्म फीस पर

भी GST लग रहा है। एक शुल्क जो Zomato/Swiggy ने बनाया।”

Earnings and Expansion

कमाई और विस्तार

• The fees are netting relatively modest sums. Zomato said in a report for 2023-24 fiscal, the item earned ₹83 crore that year.

यह शुल्क तुलनात्मक रूप से मामूली कमाई ला रहा है। Zomato ने 2023-24 की रिपोर्ट में कहा, इस मद से ₹83 करोड़ की कमाई हुई।

• But they may be setting the stage for something larger: platform fees are now being charged across all major food and grocery delivery platforms, such as Blinkit, Swiggy, Zomato and Zepto.

लेकिन ये किसी बड़े बदलाव की भूमिका बना सकते हैं: अब सभी प्रमुख फूड और ग्रॉसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे Blinkit, Swiggy, Zomato और Zepto प्लेटफॉर्म फीस वसूल रहे हैं।

• Even Amazon has started charging a ₹5 ‘marketplace fee’, something it doesn’t appear to charge users in other countries.



यहां तक कि Amazon ने भी ₹5 की 'मार्केटप्लेस फीस' लेना शुरू कर दिया है, जो कि वह अन्य देशों में उपयोगकर्ताओं से नहीं वसूलता प्रतीत होता है।

- **Spokespersons for Swiggy and Zepto did not respond** to a request for comment. **Swiggy और Zepto के प्रवक्ताओं ने टिप्पणी के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया।**
- A Zomato spokesperson said, "This fee helps us **keep the app running smoothly, invest in product improvements, and continue delivering a smooth and convenient experience** for users. **GST is applied as per government regulations and the restaurant's confirmation.**"

Zomato के प्रवक्ता ने कहा, "यह फीस हमें ऐप को सुचारू रूप से चलाने, उत्पाद सुधार में निवेश करने और उपयोगकर्ताओं को सुविधाजनक अनुभव देने में मदद करती है। GST सरकारी नियमों के अनुसार और रेस्तरां की पुष्टि के अनुसार लगाया जाता है।"

- **Amazon said in a blog post it wouldn't be applicable on bill payments and digital purchases.**

Amazon ने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि यह बिल भुगतान और डिजिटल खरीद पर लागू नहीं होगा।

Revenue Models and Profitability Push

राजस्व मॉडल और लाभप्रदता की दिशा में कदम

- **Platforms generally have multiple sources of revenue** in a single order: while **food delivery players make money from restaurants** by charging a **commission of 15–25%**, **grocery delivery apps own the inventory** they're selling, pocketing the margins of the products.

प्लेटफॉर्म आम तौर पर एक ऑर्डर से कई स्रोतों से राजस्व अर्जित करते हैं: फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म रेस्तरां से 15–25% का कमीशन लेकर कमाई करते हैं, जबकि ग्रॉसरी डिलीवरी ऐप्स अपना स्टॉक खुद रखते हैं और उत्पादों पर मार्जिन कमाते हैं।

- But **margins remain slim**, **Digvijay Ghosh**, partner of consumer products and retail at EY-Parthenon, told The Hindu.

लेकिन मार्जिन अभी भी सीमित हैं, EY-Parthenon में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रिटेल के पार्टनर दिग्विजय घोष ने द हिंदू को बताया।

- Mr. Ghosh said it was **'inevitable' such fee would start being charged** by platforms. "Obviously all the platforms are looking to have a focus on **profitability** and build on that."

श्री घोष ने कहा कि ऐसी फीस वसूलना 'अनिवार्य' था। "स्पष्ट है कि सभी प्लेटफॉर्म लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और उसे बढ़ाना चाहते हैं।"

Consumer Concerns and Competition Worries

उपभोक्ता चिंताएँ और प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंता

- The fee is a **"growing concern from a consumer point of view,"** said **Amol Kulkarni**, director of research at **Consumer Unity and Trust Society (CUTS)**. यह शुल्क **"उपभोक्ता दृष्टिकोण से बढ़ती चिंता"** है, ऐसा कहना है **Consumer Unity and Trust Society (CUTS)** के अनुसंधान निदेशक अमोल कुलकर्णी का।
- "If it is becoming an **industry standard** and **all players are in tandem appearing to raise prices**, there is a concern around **anti-competitive practices** and **entities and platforms acting as a cartel** to raise prices for consumers."

"अगर यह एक उद्योग मानक बनता जा रहा है और सभी प्लेटफॉर्म मिलकर कीमतें बढ़ा रहे हैं, तो यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य बढ़ाने हेतु कार्टेल जैसे व्यवहार का संकेत देता है।"



SEBI moves to curb high volatility in electricity futures

GS III: Economy

Ashokamithran T.
MUMBAI

Securities and Exchange Board of India (SEBI) may impose higher additional margins for electricity futures in times of high volatility, said Tuhin Kanta Pandey, Chairperson of Securities and Exchange Board of India (SEBI) at the launch of Monthly Electricity Futures here on Friday.

“Electricity has been categorised as a high-volatile commodity, thereby attracting high initial margin requirements. This will discourage undue speculative activity. Additional margins may be imposed in times of heightened volatility,” said Mr. Pandey said.

Electricity futures are future contracts with electricity as the underlying commodity. It was introduced to arrest volatility in



Electricity is a high-volatile commodity, says Pandey.

electricity prices and intended for manufacturers, power generators and distributors to hedge losses at times of price spike.

The product was introduced after consultation with a joint working group with SEBI, NSE and Central Electricity Regulation Commission. The product will be of bi-monthly expiry with 95% of the market share with NSE and the rest with MCX.

SEBI moves to curb high volatility in electricity futures

सेबी ने बिजली वायदा में उच्च अस्थिरता को रोकने के लिए कदम उठाए

Electricity Futures and SEBI's Margin Regulation बिजली वायदा और सेबी का मार्जिन नियमन

• Securities and Exchange Board of India (SEBI) may impose **higher additional margins for electricity futures in times of high volatility**, said Tuhin Kanta Pandey, Chairperson of SEBI at the launch of **Monthly Electricity Futures** here on Friday.

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) बिजली वायदा में अत्यधिक अस्थिरता के समय अधिक अतिरिक्त मार्जिन लगा सकता है, यह बात SEBI के चेयरपर्सन तुहिन कान्त पांडे ने शुक्रवार को मासिक बिजली वायदा की शुरुआत के अवसर पर कही।

• “Electricity has been categorised as a **high-volatile commodity**, thereby attracting **high initial margin requirements**. This will discourage **undue speculative activity**. Additional margins may be imposed in times of **heightened volatility**,” said Mr. Pandey.

“बिजली को उच्च अस्थिरता वाली वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे यह उच्च प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता की श्रेणी में आती है। यह अनावश्यक सट्टेबाजी गतिविधियों को हतोत्साहित करेगा। बड़ी हुई

अस्थिरता के समय अतिरिक्त मार्जिन लगाया जा सकता है,” श्री पांडे ने कहा।

Nature and Purpose of Electricity Futures बिजली वायदा का स्वरूप और उद्देश्य

- Electricity futures are future contracts with electricity as the underlying commodity.
बिजली वायदा वे अनुबंध हैं जिनमें बिजली को अंतर्निहित वस्तु के रूप में रखा गया है।
- It was introduced to **arrest volatility in electricity prices** and intended for **manufacturers, power generators and distributors to hedge losses at times of price spike**.
इसका उद्देश्य बिजली की कीमतों में अस्थिरता को रोकना और उत्पादकों, विद्युत उत्पादकों और वितरकों को कीमतों में अचानक बढ़ोतरी के समय नुकसान से बचाने के लिए किया गया है।

Development and Market Distribution विकास और बाजार वितरण

- The product was introduced after **consultation with a joint working group with SEBI, NSE and Central Electricity Regulation Commission**.
यह उत्पाद SEBI, NSE और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के साथ संयुक्त कार्यसमूह की सलाह के बाद पेश किया गया।
- The product will be of **bi-monthly expiry with 95% of the market share with NSE** and the rest with **MCX**.
इस उत्पाद की द्वि-मासिक समाप्ति होगी, जिसमें 95% बाजार हिस्सेदारी NSE के पास होगी और शेष MCX के पास।